



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



# **PATRIOTIC IAS**

## **THE HINDU NEWSPAPER**

### **DAILY CURRENT AFFAIRS**

To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

17\_04\_2025 DAILY CURRENT AFFAIRS


TOPICS COVERED (GS Paper I: History, Society and Geography)

#### **1. Karnataka Caste Census Report: All Eyes on Special Cabinet Meeting Today**

कर्नाटक जाति जनगणना रिपोर्ट: आज विशेष कैबिनेट बैठक पर सबकी निगाहें

#### **2. Facing Threat from Quarrying Activity, Telangana's Tallest Jain Idol Lies Neglected**

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)**



खनन गतिविधियों के खतरे से जूझ रही तेलंगाना की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा उपेक्षित पड़ी है

**3. Urdu is the finest specimen of composite cultural ethos of India, says Supreme Court**

उर्दू भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का श्रेष्ठ उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

**4. Monsoon anticipation: On the monsoon in 2025**

मानसून की प्रतीक्षा: 2025 में मानसून पर

**5. Call for Permanent Settlement for Tribals**

आदिवासियों के लिए स्थायी पुनर्वास की मांग

## India and China speed up efforts to restart Kailash Mansarovar pilgrimage

ES Paper 1 Mapping  
**Suhasini Haidar**  
NEW DELHI

Indian and Chinese officials are speeding up efforts to reach an agreement on restarting the annual Kailash Mansarovar Yatra, which has remained suspended since 2019. The deadline for choosing pilgrims for the Yatra is coming up in a few weeks.

Sources said that the two sides have discussed the resumption of the pilgrimage in detail in the last few weeks, and expect a breakthrough "shortly". According to officials, talks have been narrowing the gaps in outstanding issues, including checking infrastructure on both sides, and reviving logistical systems for a smooth process of travel.

The Ministry of External Affairs has convened a meeting of all the involved agencies on April 21, sources said.

An official in the Kumaon Mandal Vikas Nigam also confirmed that preparatory work is underway. The official added that arrangements are being made to take the pilgrims by special transport from Dharchula to Lipulekh pass, saving them a trek of about 80-100 km, which would have taken a few days otherwise.

The Mansarovar pilgrimage used to be held between June and September each year until China withdrew facilities for visiting Indians during the COVID-19 pandemic, and the pilgrimage remained suspended due to tensions at the Line of Actual Control



Clearing the way: The Yatra was suspended during the pandemic and had remained so over border tensions. RADHIKA SANTHANAM

after the Galwan killings in 2020.

"Narrowing gaps" In previous years, Indian authorities would set up a computerised lottery system in the first week of May to choose the pilgrims, and Officials said they were keen to complete the agreement to resume the pilgrimage at the earliest, so as not to risk delaying the process or curtailing the season for making the journey.

The resumption of the pilgrimage process was discussed between External Affairs Minister S. Jaishankar and Chinese Foreign Minister Wang Yi when they met in November, 2024, on the sidelines of the G-20 summit in Brazil to take forward the Prime Minister Narendra Modi-President Xi Jinping meeting in Kazan in October 2024.

In January, India's Foreign Secretary Vikram Mishra had visited Beijing, where the issue was at the top of the agenda. In an unusual move, the issue was also discussed by the Working Mechanism for Coordination and Consul-


tation (WMCC) on India-China border affairs.

Charges for the Yatra this year will also increase considerably from 6 years ago, the official said, as rates for accommodation and transportation have been revised upwards by both Indian and Chinese sides.


"[The two sides] exchanged views on early resumption of cross-border cooperation and exchanges, including on trans-border rivers and Kailash-Mansarovar Yatra," a press statement issued after the 33rd WMCC meeting on March 25 this year read.

The Kailash Mansarovar Yatra is organised by the Ministry of External Affairs; the Indo Tibetan Border Police; the Delhi, Sikkim and Uttarakhand governments; and state agencies, including the Kumaon Mandal Vikas Nigam.

The pilgrimage was held until 2020 through the two official routes of Lipulekh Pass in Uttarakhand (since 1981) and the Nathu La Pass (since 2015) in Sikkim. (With inputs from Ishita Mishra)



PATRIOTIC IAS



## Karnataka Caste Census Report: All Eyes on Special Cabinet Meeting Today

# Karnataka caste census report: all eyes on special Cabinet meeting today

It comes in the middle of one-upmanship between **Vokkaliga** and **Veerashaiva-Lingayat** leaders, who are opposing the report, and Backward Classes' leaders who say the document is scientific

CS Paper I: A&C

The Hindu Bureau  
BENGALURU

**A**s major communities battle it out seeking a thaw in implementation of the Socio-Economic and Educational Survey conducted by the Karnataka State Commission for Backward Classes, the much-anticipated special Cabinet meeting will decide the fate of the survey on Thursday.

The meeting comes in the midst of one-upmanship between political leaders and community leaders belonging to Vokkaligas and Veerashaiva-Lingayats, who are opposing the report, and the Backward Classes' leaders, who have termed the report to be 'scientific'.

Speculation is rife about the possibility of a Cabinet sub-committee being set up to study the report comprehensively and recommend the action to be taken.



Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has said that a decision on the issue would be taken at the Cabinet meeting. FILE PHOTO

Chief Minister Siddaramaiah told reporters in Kalaburagi that he would not allow injustice to any community, and that a decision would be taken at the Cabinet meeting on Thursday. Responding to Channagiri legislator Shivaganga Basavaraj's statement urging Lingayat legislators to resign in protest, the Chief Minister said that the legislator had expressed his opinion and the Cabinet will decide on the issue.

Elected representatives from the Vokkaliga community and from the Congress who met at Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar's residence on Tuesday are learnt to have discussed the nature of the response from the community's Ministers in the Cabinet.

While a section wanted to dispute the entire report, the other section advised that since the survey had been done through go-

vernment machinery during the Congress government, it cannot be outrightly rejected.

Discussion revolved around accepting the socio-economic status report while disputing the population data, sources said, adding that a redo of population count could be sought.

**Veerashaiva meet**

Meanwhile, the Akhila Bharata Veerashaiva Mahasabha has decided to meet its community legislators and Ministers after the special Cabinet meeting. The mahasabha has also got legal advice on the report from a retired judge.

Sources in the mahasabha said that owing to logistical issues and the Congress' protest against price rise on Thursday morning, the meeting of legislators from the community as well as the meeting with the Rajya Vokkaliga Sangha will be held after the Cabinet meeting.

कर्नाटक जाति जनगणना रिपोर्ट:  
आज विशेष कैबिनेट बैठक पर  
सबकी निगाहें

A special Cabinet meeting is scheduled on Thursday to decide the fate of the Socio-Economic and Educational Survey conducted by the Karnataka State Commission for Backward Classes.

गुरुवार को कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कराए गए सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण के भविष्य पर निर्णय लेने के लिए एक विशेष कैबिनेट बैठक निर्धारित की गई है।

- The meeting comes amid a power struggle between leaders of the **Vokkaliga** and **Veerashaiva-Lingayat** communities, who oppose the report, and **Backward Classes'** leaders, who support it as **scientific**.

यह बैठक वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत समुदायों के नेताओं के विरोध और पिछड़े वर्गों के नेताओं द्वारा इसे वैज्ञानिक बताने के बीच की खींचतान के दौरान हो रही है।

- There is speculation that a **Cabinet sub-committee** might be formed to study the report in detail and suggest further action.

यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि रिपोर्ट का विस्तार से अध्ययन करने और आगे की कार्रवाई सुझाने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति बनाई जा सकती है।

- **Chief Minister Siddaramaiah**, speaking in **Kalaburagi**, said no **injustice** would be done to any community and a decision would be taken in the **Thursday** Cabinet meeting.



मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कलबुर्गी में कहा कि किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और गुरुवार की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

- Responding to **Channagiri MLA Shivaganga Basavaraj's** suggestion that **Lingayat legislators** resign in protest, the CM said it was his personal opinion and the Cabinet would decide.

चन्नगिरी विधायक शिवगंगा बसवराज के लिंगायत विधायकों को विरोध में इस्तीफा देने के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है और इस पर कैबिनेट निर्णय लेगी।

- **Congress Vokkaliga legislators** held a meeting at **Deputy CM D.K. Shivakumar's** residence on **Tuesday**, discussing how community ministers would respond in the Cabinet.

मंगलवार को उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के आवास पर कांग्रेस के वोक्कालिगा विधायक एकत्र हुए और कैबिनेट में समुदाय के मंत्रियों की प्रतिक्रिया पर चर्चा की।

- Some leaders wanted to reject the entire report, while others pointed out it was conducted by the **Congress government** and couldn't be completely dismissed.  
कुछ नेताओं ने पूरी रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की, जबकि अन्य ने कहा कि यह कांग्रेस सरकार द्वारा कराई गई थी, इसलिए इसे पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
- There was discussion about accepting the **socio-economic status** findings while questioning the **population data**, and the possibility of redoing the population count was considered.

सामाजिक-आर्थिक स्थिति के निष्कर्षों को स्वीकार करने और जनसंख्या आंकड़ों पर सवाल उठाने की चर्चा हुई, और जनगणना को फिर से करने की संभावना पर विचार किया गया।

## Veerashaiva Mahasabha Meeting

### वीरशैव महासभा की बैठक

- The **Akhila Bharata Veerashaiva Mahasabha** has decided to meet its **legislators and ministers** after the Cabinet meeting.

अखिल भारतीय वीरशैव महासभा ने कैबिनेट बैठक के बाद अपने विधायकों और मंत्रियों की बैठक करने का निर्णय लिया है।

- The mahasabha has also obtained **legal advice** on the report from a **retired judge**.  
महासभा ने रिपोर्ट पर एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कानूनी सलाह भी ली है।
- Due to **logistical issues** and the **Congress protest** against **price rise** on **Thursday morning**, both the community legislator meeting and the meeting with the **Rajya Vokkaliga Sangha** will take place after the Cabinet session.

लॉजिस्टिक कारणों और गुरुवार सुबह कांग्रेस के महंगाई विरोधी प्रदर्शन के कारण, समुदाय के विधायकों की बैठक और राज्य वोक्कालिगा संघ के साथ बैठक कैबिनेट सत्र के बाद आयोजित की जाएगी।

Veerashaiva-Lingayat Community

वीरशैव-लिंगायत समुदाय



- The Veerashaiva-Lingayat community follows the teachings of **12th-century reformer Basavanna**, emphasizing devotion to Lord Shiva and rejecting caste hierarchies.  
वीरशैव-लिंगायत समुदाय 12वीं शताब्दी के सुधारक बसवन्ना की शिक्षाओं का पालन करता है, जो भगवान शिव की भक्ति और जातिगत भेदभाव का विरोध करते थे।
- Veerashaiva refers to the broader philosophical tradition, while Lingayat denotes the community adhering to **Basavanna's teachings**.  
वीरशैव शब्द एक वृहद दर्शन परंपरा को दर्शाता है, जबकि लिंगायत वे लोग हैं जो बसवन्ना की शिक्षाओं को मानते हैं।

### Subgroups

#### उप-समूह

- Panchamasali Lingayats are a significant subgroup demanding higher reservation status.  
पंचमसाली लिंगायत एक प्रमुख उप-समूह हैं जो उच्च आरक्षण दर्जे की मांग कर रहे हैं।

### Socio-Economic Status

#### सामाजिक-आर्थिक स्थिति

- Lingayats are considered a **dominant community** in Karnataka with substantial **landholdings** and influence across various sectors.  
लिंगायतों को कर्नाटक में एक प्रमुख समुदाय माना जाता है, जिनके पास प्रचुर भूमि है और ये विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली हैं।
- They are included in the **Other Backward Classes (OBC)** category in Karnataka's reservation system.  
इन्हें कर्नाटक की आरक्षण व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत रखा गया है।

### Political Influence

#### राजनीतिक प्रभाव

- The community has been **highly influential** in Karnataka politics, with **10 out of 23 Chief Ministers** belonging to the Lingayat community.  
यह समुदाय कर्नाटक की राजनीति में बहुत प्रभावशाली रहा है, जहां 23 में से 10 मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय से रहे हैं।



## Vokkaliga Community

### वोक्कालिगा समुदाय

- The **Vokkaligas** are a prominent **agrarian community** in Karnataka, historically serving as **landlords** and **warriors**, particularly in the **Old Mysore** region.  
वोक्कालिगा कर्नाटक का एक प्रमुख कृषि-आधारित समुदाय है, जो ऐतिहासिक रूप से जमींदारों और युद्धाओं के रूप में पुराने मैसूर क्षेत्र में कार्यरत रहा है।
- They held significant **administrative roles** during the **Vijayanagara Empire** and were influential under the **Keladi Nayaka** rule.  
इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के दौरान महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएं निभाईं और केलाड़ी नायक शासन में प्रभावशाली रहे।

## Subgroups

### उप-समूह

- **Gangadikara Vokkaligas** are found mainly in **Mysore, Mandya**, and surrounding districts; they claim descent from the **Western Ganga Dynasty**.  
गंगदिकारा वोक्कालिगा मुख्यतः मैसूर, मांड्या और आस-पास के जिलों में पाए जाते हैं; ये स्वयं को पश्चिमी गंग वंश का वंशज मानते हैं।
- **Morasu Vokkaligas** are located around **Bangalore** and **Tumkur**; a notable figure is **Kempe Gowda I**, founder of **Bangalore**.  
मोरासु वोक्कालिगा बेंगलुरु और तुमकुर क्षेत्रों में बसे हुए हैं; इनमें प्रमुख नाम केम्पेगौड़ा प्रथम का है, जो बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं।
- **Namdhari Vokkaligas** are concentrated in the **Malenadu** region; some converted to **Vaishnavism** under **Hoysala King Vishnuvardhana**.  
नामधारी वोक्कालिगा मालेनाडु क्षेत्र में केंद्रित हैं; इनमें से कुछ ने होयसाल राजा विष्णुवर्धन के प्रभाव में आकर वैष्णव धर्म अपना लिया।

## Socio-Economic Status

### सामाजिक-आर्थिक स्थिति

- Traditionally, Vokkaligas have been **landowners** and played a **dominant role** in Karnataka's **agrarian economy**.  
परंपरागत रूप से, वोक्कालिगा भूमि के मालिक रहे हैं और कर्नाटक की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाते आए हैं।
- They are categorized under **Category 3A** in Karnataka's reservation system, receiving **4% reservation**.



इन्हें कर्नाटक की आरक्षण प्रणाली में श्रेणी 3A में रखा गया है और ये 4% आरक्षण प्राप्त करते हैं।

### Political Influence

#### राजनीतिक प्रभाव

- The community has produced several political leaders, including former **Chief Minister H.D. Deve Gowda**.

इस समुदाय ने कई राजनीतिक नेता दिए हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. देवगौड़ा प्रमुख हैं।

PATRIOTIC IAS



# Facing threat from quarrying activity, Telangana's tallest Jain idol lies neglected

GS Paper I: Jainism

**The Hindu Bureau**  
HYDERABAD

Telangana's tallest stone sculpture of Jain Tirthankara Vardhman Mahavira, located at Nangunuru village in Siddipet district, is under threat from quarrying activity, according to E. Sivanagireddy, archaeologist and CEO of Pleach India Foundation.

Based on information provided by Sriramoju Haragopal and Ahobilam Karunakar, the convener and member of Kotha Telangana Charitra Brundam (a team of historians) respectively, Mr. Sivanagireddy inspected the Jain sculpture recently. The sculpture, erected on a low-lying



**Fading history:** Archaeologist Sivanagireddy and others at Vardhaman Mahavira's stone sculpture at Nangunuru village.

hillock in the southern part of the village, stands 9 feet high and 3.5 feet wide, depicting Mahavira in a *Kayotsarga* (stiff) posture. It has sunk into the ground up to the knee level.

The sculpture represents the Digambara sect of Jainism and features an *ushnisha* (cranial protrusion) on the head, characteristic of Tirthankara iconography, dating back to

the 9th Century CE (Rashtrakuta period). During his inspection, Mr. Sivanagireddy also noticed another small Mahavira sculpture carved on a slab at the foot of the hillock. Furthermore, a Jain sculpture in the premises of the local Anjaneya temple suggests that Nangunuru was once a prominent Jain center.

The presence of brick bats and potsherds near the giant Mahavira sculpture indicates that a Jain *basadi* (monastery) once existed there. Mr. Sivanagireddy sensitised the villagers to the historical significance of the Jain sculpture and appealed for its preservation by halting the quarrying activity.

## Facing Threat from Quarrying Activity, Telangana's Tallest Jain Idol Lies Neglected

खनन गतिविधियों के खतरे से जूझ रही तेलंगाना की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा उपेक्षित पड़ी है

- **Telangana's tallest stone sculpture of Jain Tirthankara Vardhman Mahavira**, located at Nangunuru village in Siddipet district, is under threat due to quarrying activity, according to E. Sivanagireddy, archaeologist and CEO of Pleach India Foundation.

तेलंगाना के सिद्धिपेट जिले के नंगुनूर गांव में स्थित जैन तीर्थकर वर्धमान



महावीर की सबसे ऊंची पत्थर की प्रतिमा खनन गतिविधियों के कारण खतरे में है, ऐसा कहना है पुरातत्वविद और प्लीच इंडिया फाउंडेशन के सीईओ ई.

शिवनागिरेड्डी का।

- Based on information from **Sriramoju Haragopal** and **Ahobilam Karunakar**, of **Kotha Telangana Charitra Brundam**, Mr. Sivanagireddy recently **inspected** the sculpture. कोथा तेलंगाना चरित्र ब्रुंदम के श्रीरामोजु हरगोपाल और अहोबिलम करुणाकर से मिली जानकारी के आधार पर ई. शिवनागिरेड्डी ने हाल ही में इस प्रतिमा का निरीक्षण किया।
- The sculpture stands on a **low hillock** in the southern part of the village and measures **9 feet high** and **3.5 feet wide**, depicting Mahavira in **Kayotsarga (standing meditative)** posture. यह प्रतिमा गांव के दक्षिणी भाग के एक छोटे टीले पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 9 फीट व चौड़ाई 3.5 फीट है, जिसमें महावीर को कायोत्सर्ग मुद्रा में दर्शाया गया है।
- The sculpture has **sunk into the ground** up to the **knee level**. यह प्रतिमा घुटनों तक जमीन में धंस चुकी है।
- It belongs to the **Digambara sect** and shows a **cranial protuberance (ushnisha)** on the head, a common feature of **Tirthankara iconography**, and dates back to the **9th Century CE (Rashtrakuta period)**.



यह प्रतिमा दिगंबर संप्रदाय की है और सिर पर उष्णीष (कपाल वृद्धि) को दर्शाती है, जो तीर्थंकर प्रतीकों की विशेषता है, और यह 9वीं शताब्दी ईस्वी (राष्ट्रकूट काल) की है।

यह प्रतिमा दिगंबर संप्रदाय की है और सिर पर उष्णीष (कपाल वृद्धि) को दर्शाती है, जो तीर्थंकर प्रतीकों की विशेषता है, और यह 9वीं शताब्दी ईस्वी (राष्ट्रकूट काल) की है।

• During the visit, Mr. Sivanagireddy also found a **smaller Mahavira sculpture** carved on a **slab at the foot of the hillock**. निरीक्षण के दौरान ई. शिवनागिरेड्डी को टीले के तल पर एक छोटी महावीर प्रतिमा भी एक शिला पर उकेरी हुई मिली।

• A **Jain sculpture** in the local **Anjaneya temple** indicates that **Nangunuru** was once a **significant Jain center**.

स्थानीय अंजनेय मंदिर में मौजूद एक जैन प्रतिमा इस बात का संकेत देती है कि नंगुनूर कभी एक महत्वपूर्ण जैन केंद्र था।

• The discovery of **brick bats** and **potsherds** near the large Mahavira statue suggests that a **Jain Basadi (monastery)**



once existed there.

महावीर प्रतिमा के पास मिले ईंट के टुकड़े और मिट्टी के बर्तन यह संकेत देते हैं कि वहां कभी एक जैन बसादी (मठ) था।

- Mr. Sivanagireddy sensitized the villagers to the historical importance of the sculpture and urged them to preserve it by stopping the quarrying activity.

ई. शिवनागिरेड्डी ने ग्रामीणों को इस प्रतिमा के ऐतिहासिक महत्व के प्रति जागरूक किया और इसे संरक्षित करने के लिए खनन गतिविधियों को रोकने की अपील की।

## Rashtrakuta Dynasty

### राष्ट्रकूट वंश

- The **Rashtrakutas** were a prominent dynasty that ruled over large parts of the Indian subcontinent, especially the **Deccan region**, from the **8th to the 10th century CE**.

राष्ट्रकूट एक प्रमुख वंश था जिसने 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्र (दक्कन) पर शासन किया।

- Their empire included present-day **Maharashtra, Karnataka, and** extended into parts of **Madhya Pradesh and Tamil Nadu**.


उनका साम्राज्य वर्तमान के महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था।

- The dynasty is known for its contributions to **art, architecture, literature, and mathematics**. यह वंश कला, वास्तुकला, साहित्य और गणित में अपने योगदान के लिए जाना जाता है।

### Founding and Capitals

#### स्थापना और राजधानियाँ

- The dynasty was founded by **Dantidurga** around **735 CE**, who established his capital at **Manyakheta (Malkhed)** near modern-day **Kalaburagi district, Karnataka**.





इस वंश की स्थापना 735 ईस्वी के आसपास दंतिदुर्ग ने की थी, जिन्होंने अपनी राजधानी **मण्यक्षेता (मलखेड)** को बनाया, जो आज के **कलबुर्गी जिला (कर्नाटक)** के पास स्थित है।

- **Ellora (Ellichipuram)** was also an important center during the early phase of their rule. शासन के प्रारंभिक चरण में एलोरा (एलिचिपुरम) भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था।

### Key Rulers and Their Contributions

#### प्रमुख शासक और उनके योगदान

- **Dantidurga (735–756 CE):** Overthrew the **Chalukyas** and laid the **foundation** of the Rashtrakuta Empire. Initiated the construction of the **Dashavatara Temple** at Ellora.  
**दंतिदुर्ग (735–756 ईस्वी):** उन्होंने चालुक्यों को पराजित किया और राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने एलोरा में दशावतार मंदिर के निर्माण की शुरुआत की।
- **Krishna I (756–774 CE):** Defeated the **Pallavas** and commissioned the construction of the **Kailasanatha Temple** at Ellora, a **monolithic rock-cut temple** representing **Mount Kailash**.  
**कृष्ण प्रथम (756–774 ईस्वी):** उन्होंने पल्लवों को पराजित किया और एलोरा में कैलासनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो एकाशम शिलाखंड मंदिर है और माउंट कैलाश का प्रतीक है।
- **Dhruva Dharavarsha (780–793 CE):** Participated in the **Tripartite Struggle** for control over **Kannauj**, defeating both **Pratiharas and Palas**.  
**ध्रुव धरवर्ष (780–793 ईस्वी):** इन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहारों व पालों को पराजित किया।
- **Govinda III (793–814 CE):** Continued campaigns in **northern India**, reasserting control over **Kannauj** and further consolidating the empire.  
**गोविंद तृतीय (793–814 ईस्वी):** उन्होंने उत्तरी भारत में अभियान जारी रखे और कन्नौज पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर साम्राज्य को और मजबूत किया।
- **Amoghavarsha I (814–878 CE):** Regarded as the **greatest Rashtrakuta ruler**. Shifted the capital from **Ellora to Manyakheta**. Authored **Kavirajamarga**, the **earliest Kannada literary work**.  
**अमोघवर्ष प्रथम (814–878 ईस्वी):** इन्हें सबसे महान राष्ट्रकूट शासक माना जाता है। उन्होंने राजधानी एलोरा से मण्यक्षेता स्थानांतरित की। इन्होंने काविराजमार्ग नामक प्रथम कन्नड़ साहित्यिक रचना लिखी।

### Architectural Achievements

#### वास्तुकला में उपलब्धियाँ

- The Rashtrakutas are celebrated for **rock-cut architecture**, especially at **Ellora**. राष्ट्रकूट शिलाखंड वास्तुकला, विशेष रूप से एलोरा में, के लिए प्रसिद्ध हैं।



- **Kailasanatha Temple** is a massive monolithic temple carved out of a single rock, representing **Lord Shiva's abode**.  
कैलासनाथ मंदिर एक विशाल एकात्म मंदिर है जिसे एक ही चट्टान से तराशा गया है और यह भगवान शिव के निवास स्थान का प्रतीक है।
- **Indra Sabha and Kota Kailasa** are other notable cave temples at Ellora, known for their intricate carvings.  
इंद्र सभा और कोटा कैलास एलोरा की अन्य प्रमुख गुफा मंदिर हैं, जो अपनी जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं।

### Literary and Scientific Contributions

#### साहित्यिक और वैज्ञानिक योगदान

- **Kavirajamarga**, written by **Amoghavarsha I**, is a treatise on **Kannada poetics** and considered the **earliest extant Kannada literary work**.  
काविराजमार्ग, जिसे अमोघवर्ष प्रथम ने लिखा था, कन्नड़ काव्यशास्त्र पर एक ग्रंथ है और इसे सबसे प्राचीन कन्नड़ साहित्यिक कृति माना जाता है।
- **Ganitasara Sangraha**, authored by **Mahaviracharya**, is one of the **earliest comprehensive texts on arithmetic**, covering **operations, fractions, and algebraic equations**.  
गणितसार संग्रह, जो महावीराचार्य द्वारा रचित है, गणित पर एक प्रारंभिक व्यापक ग्रंथ है जिसमें सांख्यिकीय क्रियाएं, भिन्न, और बीजगणितीय समीकरण शामिल हैं।



# Urdu is the finest specimen of composite cultural ethos of India, says Supreme Court

GS Paper I: Society

**Krishnadas Rajagopal**  
NEW DELHI

The Supreme Court has said it is a “pitiable digression from reality” to believe that Hindi is the language of the Hindus and Urdu of the Muslims. A language is only a means of communication and does not represent a religion, it stated.

“Language is not religion. Language does not even represent religion. Language belongs to a community, to a region, to people; and not to a religion. Language is culture. Language is the yardstick to measure the civilisational march of a community and its people. So is the case of Urdu, which is the finest specimen of Ganga-Jamuni *tahzeeb*, or the Hindustani *tahzeeb*, which is the composite cultural ethos of the plains of northern and central India,” a Bench of Justices Sudhanshu Dhulia and Vinod Chandran said in a judgment.

The order stemmed



from an appeal filed against the use of Urdu on the signboard of a new building of the Municipal Council, Patur, in Akola district of Maharashtra. The signage ‘Municipal Council, Patur’ was written in Marathi and then in Urdu. The appellant, Varshatai, a former Municipal Council member, said Marathi was the official language of the State of Maharashtra and that the use of Urdu was “wrong”.

The court said Urdu was not an alien language. It was born and nurtured in India, and reached greater refinement and became a language of choice for poets in India. “The prejudice against Urdu stems

from the misconception that Urdu is alien to India. This opinion, we are afraid, is incorrect as Urdu, like Marathi and Hindi, is an Indo-Aryan language,” Justice Dhulia said.

The court said Hindi and Urdu were fundamentally one language. “When we criticise Urdu, we are in a way also criticising Hindi... True, Urdu is mainly written in Nastaliq and Hindi in Devanagari; but then scripts do not make a language. What makes languages distinct is their syntax, their grammar and their phonology. Urdu and Hindi have broad similarities in all these counts,” the top court said.

The fusion of the two languages, Hindi and Urdu, met a roadblock in the form of the puritans on both sides and Hindi became more Sanskritised and Urdu more Persian, Justice Dhulia explained.

The common man’s everyday Hindi was peppered with Urdu terms, the judge noted.

**Urdu is the finest specimen of composite cultural ethos of India, says Supreme Court**

**उर्दू भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का श्रेष्ठ उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा**

**• The Supreme Court said that it is a “pitiable digression from reality” to believe that Hindi is the language of Hindus and Urdu of Muslims.**

**सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मानना कि हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुसलमानों की भाषा है, “वास्तविकता से दयनीय भटकाव” है।**

**• A language is merely a means of communication and does not represent a religion.**  
एक भाषा केवल संचार का माध्यम

**होती है और धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती।**

- “Language is not religion. Language belongs to a **community**, a **region**, or **people**, not to a **religion**.

“भाषा कोई धर्म नहीं है। भाषा एक **समुदाय**, एक **क्षेत्र** या **लोगों** से संबंधित होती है, धर्म से नहीं।

- **Language is a form of culture**, and a **yardstick** to measure the **civilisational progress** of a community.

भाषा **संस्कृति** का एक रूप है और किसी **समुदाय** की **सभ्यतागत प्रगति** को मापने का **मानदंड** है।



- **Urdu**, the court said, is the **finest specimen of Ganga-Jamuni or Hindustani tahzeeb**, the **composite cultural ethos of northern and central India**.  
न्यायालय ने कहा कि उर्दू गंगा-जमुनी या हिंदुस्तानी तहज़ीब का श्रेष्ठ उदाहरण है, जो उत्तरी और मध्य भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
- This observation was made by a Bench of **Justices Sudhanshu Dhulia and Vinod Chandran** during a **judgment**.  
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने एक निर्णय के दौरान की।
- The judgment was given in response to an **appeal** filed against the use of **Urdu on a signboard** of the **Municipal Council, Patur** in **Akola district, Maharashtra**.  
यह निर्णय महाराष्ट्र के अकोला जिले के पाटूर नगर परिषद की साइनबोर्ड पर उर्दू के उपयोग के खिलाफ दायर एक अपील पर दिया गया।
- The signboard had 'Municipal Council, Patur' written in **Marathi first**, followed by **Urdu**.  
इस साइनबोर्ड पर पहले मराठी में और फिर उर्दू में 'नगर परिषद, पाटूर' लिखा गया था।
- **The appellant, Varshatai, a former council member, argued that Marathi is the official language of Maharashtra, and hence Urdu should not be used.**  
अपीलकर्ता वर्षाताई, जो कि पूर्व नगर परिषद सदस्य हैं, ने तर्क दिया कि मराठी महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है और इसलिए उर्दू का प्रयोग अनुचित है।
- The court emphasized that **Urdu is not an alien language**. It was **born and nurtured in India**, and later became the **language of choice for poets**.  
न्यायालय ने जोर देकर कहा कि उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं है। यह भारत में जन्मी और पली-बढ़ी है और बाद में यह कवियों की पसंदीदा भाषा बनी।
- The **prejudice** against Urdu is due to the **misconception** that it is **foreign** to India, which is **incorrect**.  
उर्दू के प्रति पूर्वाग्रह इस गलतफहमी के कारण है कि यह भारत के लिए विदेशी है, जो कि गलत है।
- **Urdu**, like **Hindi** and **Marathi**, is an **Indo-Aryan language**, the court noted.  
न्यायालय ने कहा कि उर्दू, हिंदी और मराठी की तरह ही एक हिंद-आर्य भाषा है।
- **The court also pointed out that Hindi and Urdu are fundamentally one language.**  
न्यायालय ने यह भी कहा कि हिंदी और उर्दू मूल रूप से एक ही भाषा हैं।
- **The main difference is that Urdu uses Nastaliq script, while Hindi uses Devanagari; but scripts do not define a language.**  
मुख्य अंतर यह है कि उर्दू नस्तलिक लिपि में और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है; लेकिन लिपियाँ भाषा की पहचान नहीं होतीं।
- What defines a language is its **syntax, grammar, and phonology**, in which **Urdu and Hindi** have **broad similarities**.  
भाषा को परिभाषित करती है उसकी व्याकरण, वाक्य रचना और ध्वनियों की प्रणाली, जिसमें उर्दू और हिंदी में व्यापक समानताएँ हैं।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



## Monsoon anticipation

Despite prediction of normal rainfall,  
India must be ready for extremes

**T**he India Meteorological Department (IMD) has given a reassuring signal that from June to September, India is likely to receive 'above normal' monsoon rainfall, or 5% more than the historical average of 87 cm. Were this to pan out as projected, it would be a second consecutive year of 'above normal' rains. Last year, India received 8% more monsoon rain than what is typical from June to September. This is good news for *kharif* sowing, which will help improve stocks of grain and shore up reserves for exports. This year the government has also committed to procure, at the minimum support prices, pulses in an attempt to reduce the import bill. As pulses are a more land-intensive crop than cereal, good rains are essential for an adequate harvest. The IMD follows a two-stage system of monsoon forecasts: the first in April, followed by an update in mid-May, which has additional information on rainfall distribution. These are regularly updated monthly, alongside a host of short-term forecasts. Thus, what is forecast in April may not exactly unfurl itself given the limitations of meteorological science and the computational tools required. However, this year, there is certainty about the absence of an El Niño. Associated with a warming of the Equatorial Pacific and with six out of 10 years linked to weak monsoon rain, a monsoon without an El Niño augurs well for India. Another encouraging factor is a parameter called the 'Eurasian snow cover,' or snow cover areas of northern hemisphere and Eurasia (January-March, 2025). These were 'below normal,' and, according to IMD meteorologists, have an 'inverse relationship' with that year's summer monsoon rainfall. An inverse relationship means that less snow corresponds to more rain.

For its monsoon forecasts, the IMD uses weather models that simulate the ocean and the atmosphere. This year, except for the El Niño, none of the 'oceanic parameters' indicates either way – how the monsoon will pan out. This is not unusual but means that factors closer to the sub-continent - cyclonic activity in the Bay of Bengal and Arabian Sea for instance – will have greater importance to the monsoon. Past years with above normal rainfall have brought flooding and landslides, accentuated by the challenges of global warming. Kerala's Wayanad disaster in July last year, that killed at least 200 people and displaced several times that number, is just one instance. Therefore, positive news on the monsoon front should not distract the focus of the Centre and States from putting in place adequate infrastructure to minimise damage and the loss of lives.

## Monsoon anticipation: On the monsoon in 2025

**मानसून की प्रतीक्षा: 2025 में मानसून पर**

**The India Meteorological Department (IMD) has forecast that India is likely to receive 'above normal' monsoon rainfall — about 5% more than the historical average of 87 cm from June to September.**

**भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि भारत को जून से सितंबर के बीच औसत 87 सेमी वर्षा की तुलना में लगभग 5% अधिक मानसूनी वर्षा मिलने की संभावना है।**

• If this projection holds true, it would mark the **second consecutive year of 'above normal' rains**.

यदि यह अनुमान सही रहता है, तो यह लगातार दूसरा वर्ष होगा जब सामान्य से अधिक वर्षा होगी।

• In 2024, India received **8% more** monsoon rain than the average from June to September.

**2024 में, भारत को जून से सितंबर के बीच औसत से 8% अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त हुई थी।**

• This is **positive news for kharif sowing**, as it could help improve **grain stocks** and increase **export reserves**.

यह खरीफ फसलों की बुवाई के लिए सकारात्मक खबर है क्योंकि इससे अनाज भंडार में वृद्धि और निर्यात भंडार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

• The government has also committed to **procure pulses at MSP** to reduce the **import bill**.

सरकार ने आयात बिल को कम करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दालों की खरीद का भी वादा किया है।

• Since **pulses are more land-intensive** than cereals, **good rainfall** is essential for **adequate production**.

चूंकि दालें अनाज की तुलना में अधिक भूमि की मांग करती हैं, इसलिए उचित उत्पादन के लिए अच्छी वर्षा आवश्यक है।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



## Two-stage Monsoon Forecast System

### दो चरणों वाली मानसून पूर्वानुमान प्रणाली

- IMD follows a **two-stage forecasting system** — the **first in April** and an **update in mid-May**, including rainfall distribution.  
IMD एक दो चरणों की पूर्वानुमान प्रणाली का पालन करता है — पहला पूर्वानुमान अप्रैल में और दूसरा अद्यतन मई मध्य में होता है, जिसमें वर्षा वितरण की जानकारी शामिल होती है।
- These are further updated **monthly** and accompanied by **short-term forecasts**.  
इन पूर्वानुमानों को मासिक रूप से अद्यतन किया जाता है और इनके साथ **स्वल्पकालिक पूर्वानुमान** भी होते हैं।
- However, due to **limitations in meteorological science**, what is forecast in April may **not fully materialise**.  
हालांकि, **मौसम विज्ञान की सीमाओं** के कारण, अप्रैल में किया गया पूर्वानुमान **पूरी तरह से सटीक नहीं** हो सकता।

## Absence of El Niño: A Positive Signal

### एल नीनो की अनुपस्थिति: एक सकारात्मक संकेत

- There is **certainty** about the **absence of El Niño** this year, which usually **weakens the monsoon in 6 out of 10 years**.  
इस वर्ष **एल नीनो की अनुपस्थिति** को लेकर **निश्चितता** है, जो आमतौर पर **10 में से 6 वर्षों में मानसून को कमजोर** करता है।
- Thus, a monsoon without El Niño is **encouraging** for India.  
इसलिए, **एल नीनो रहित मानसून** भारत के लिए **उत्साहजनक** है।

## Eurasian Snow Cover: Inverse Relation

### यूरेशियन हिमावरण: विपरीत संबंध

- Another favorable factor is **Eurasian snow cover, which was below normal** during **January to March 2025**.  
एक अन्य अनुकूल कारक है **यूरेशियन हिमावरण**, जो **जनवरी से मार्च 2025** के दौरान **सामान्य से कम** रहा।
- This parameter has an **inverse relationship** with India's summer monsoon — **less snow means more rain**.  
इस पैरामीटर का भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून से **विपरीत संबंध** होता है — यानी **कम बर्फबारी, अधिक वर्षा** का संकेत है।



## Uncertainty in Other Oceanic Parameters

### अन्य समुद्री मानकों में अनिश्चितता

- IMD uses **weather models** that simulate the **ocean and atmosphere** for forecasting. IMD पूर्वानुमान के लिए **समुद्र और वायुमंडल की नकल करने वाले मौसम मॉडल** का उपयोग करता है।
- This year, apart from El Niño, other **oceanic parameters are neutral**, indicating **no clear signal** for monsoon.  
इस वर्ष, **एल नीनो को छोड़कर**, अन्य समुद्री मानक तटस्थ हैं, जो मानसून के लिए **कोई स्पष्ट संकेत नहीं देते**।
- Hence, **regional factors**, such as **cyclonic activity** in the **Bay of Bengal and Arabian Sea**, will be **more critical**.  
इसलिए, **बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रीय गतिविधियों** जैसे क्षेत्रीय कारक अधिक निर्णायक होंगे।

## Flooding and Landslides in Previous Years

### पिछले वर्षों में बाढ़ और भूस्खलन

- Past years with **above normal rainfall** also witnessed **floods and landslides**, worsened by **climate change**.  
पिछले वर्षों में **सामान्य से अधिक वर्षा** के साथ **बाढ़ और भूस्खलन** भी देखे गए, जिन्हें **जलवायु परिवर्तन** ने और **गंभीर बना दिया**।
- For example, in **July 2024**, **Wayanad, Kerala** experienced a disaster that killed **at least 200 people** and **displaced thousands**.  
उदाहरण के लिए, **जुलाई 2024** में, **केरल के वायनाड** में एक आपदा आई जिसमें **कम से कम 200 लोग मारे गए** और **हजारों लोग विस्थापित हुए**।

## Preparedness Must Continue Despite Good Forecasts

### अच्छे पूर्वानुमान के बावजूद तैयारी जारी रहनी चाहिए

- The **positive monsoon forecast** must not divert attention from **infrastructure preparedness** by the **Centre and States**.  
**सकारात्मक मानसून पूर्वानुमान** से **केंद्र और राज्य सरकारों को बुनियादी ढांचे की तैयारी** से ध्यान नहीं हटाना चाहिए।
- Efforts must focus on **minimising loss of lives and damage** through early warning systems and relief mechanisms.  
**प्रयासों को जान-माल के नुकसान को कम करने और राहत उपायों पर केंद्रित होना चाहिए**।



## Eurasian Snow Cover and Its Inverse Relationship with the Indian Summer Monsoon

### यूरेशियन हिम आवरण और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के बीच विपरीत संबंध

- Eurasian snow cover refers to the extent of snow accumulation over the Eurasian landmass, particularly during the winter and spring months. This snow cover plays a significant role in influencing the Indian summer monsoon, which occurs from June to September.

यूरेशियन हिम आवरण यूरेशियन स्थलखंड पर विशेष रूप से सर्दियों और वसंत ऋतु के महीनों में हिमपात की मात्रा को दर्शाता है। यह हिम आवरण जून से सितंबर तक होने वाले भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- An inverse relationship exists between Eurasian snow cover and the Indian summer monsoon rainfall.

यूरेशियन हिम आवरण और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के बीच एक विपरीत संबंध होता है।

- This means that when the snow cover over Eurasia is below normal during the preceding winter and spring, the Indian summer monsoon tends to be stronger, resulting in increased rainfall.

इसका मतलब है कि जब पिछले सर्दियों और वसंत में यूरेशिया पर हिम आवरण सामान्य से कम होता है, तो भारतीय मानसून मजबूत होता है, जिससे वर्षा अधिक होती है।

- Conversely, above-normal snow cover is associated with weaker monsoon activity and reduced rainfall over India.

इसके विपरीत, जब हिम आवरण सामान्य से अधिक होता है, तो मानसून की गतिविधि कमजोर होती है और भारत में वर्षा कम होती है।

#### Mechanisms Behind the Relationship

##### इस संबंध के पीछे के तंत्र

- The inverse relationship is primarily attributed to the snow-albedo effect and its impact on atmospheric circulation patterns.

यह विपरीत संबंध मुख्य रूप से हिम-एल्बीडो प्रभाव और वायुमंडलीय परिसंचरण पर इसके प्रभाव के कारण होता है।



### Snow-Albedo Effect

#### हिम-एल्बीडो प्रभाव

- Snow has a **high albedo**, meaning it reflects a significant portion of **incoming solar radiation**.  
हिम में उच्च एल्बीडो होता है, अर्थात यह आने वाली सौर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा परावर्तित कर देता है।
- Extensive snow cover over Eurasia leads to **increased reflection** of sunlight, resulting in **cooler surface temperatures**.  
यूरेशिया पर व्यापक हिम आवरण सूर्य के प्रकाश के अधिक परावर्तन का कारण बनता है, जिससे भूमि की सतह ठंडी हो जाती है।
- This cooling affects the **temperature gradient** between the **land and the ocean**, which is crucial for the development of **monsoon winds**.  
यह ठंडक भूमि और महासागर के बीच के तापीय अंतर को प्रभावित करती है, जो मानसून हवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है।

### Atmospheric Circulation

#### वायुमंडलीय परिसंचरण

- Reduced snow cover leads to **warmer land surfaces**, enhancing the **land-sea temperature contrast**.  
कम हिम आवरण भूमि की सतह को गर्म करता है और भूमि-समुद्र तापीय अंतर को बढ़ाता है।
- This contrast strengthens the **monsoon circulation** by intensifying the **low-pressure system** over the **Indian subcontinent**.  
यह अंतर भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न-दाब प्रणाली को तेज करके मानसून परिसंचरण को मजबूत करता है।
- As a result, **moist air** is drawn from the **oceans**, leading to **increased rainfall**.  
इसके परिणामस्वरूप महासागरों से नम हवा खिंचती है, जिससे वर्षा में वृद्धि होती है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



# Call for permanent settlement for tribals

GS Paper I: Society

In 2005, around 50,000 Gond tribals were forced to migrate to then-undivided Andhra Pradesh (now parts of Telangana) when the Government of India embarked on the 'strategic hamleting' programme – an approach used in south Vietnam in the 1960s – to eliminate Maoists in Chhattisgarh. The project, however, was a failure. The tribals, who the government had relocated to roadside camps, have long gone back home to the deep forests, and while some, who could not go back in fear of Maoists, joined the security forces.

Some of these dislocated tribals are now the backbone of the current military successes of security forces against Maoists in Chhattisgarh. Many Maoists who have surrendered have also joined them. Unlike central paramilitary forces and local non-tribal police, these tribals know the language and terrain of the area, and have proven to be game-changers, especially for Home Minister Amit Shah, who has announced that the war against Maoists will be over by March 31, 2026.

## Through the years

The Strategic Hamlet Program to fight communist revolutionaries is not new in India. Just after Independence, at the end of 1949, the new Government of India also shifted tribals from forests to roadside camps to fight the Telangana communist revolutionaries after the surrender of the Nizam. They had recruited hundreds of tribals as "special police constables" to fight the communist *dalams*, although they mostly possessed rudimentary weapons such as spears and axes and had no military training. One such special group of Koya tribals was the "Tiger Squad," which had around 300 members.

The Strategic Hamlet strategy was more successful in Mizoram in the 1960s, where the government eventually reached a peace deal with the Mizo fighters. Much later, in 2019, when the same Mizo



**Shubhranshu Choudhary**

author of 'Let's call him Vasu: With Maoists in Chhattisgarh'. He is also an active member of the New Peace Process there

Most of the displaced tribals, mainly from the new generation, are attracted towards more economic opportunities available in Andhra Pradesh and Telangana

tribals started a fight with fellow Bru (Reang) tribals – causing thousands to flee to nearby Tripura – the Government of India came to their rescue with a Bru rehabilitation plan.

However, the government has not shown kindness towards the Gutti Koya tribals (as they are known in Andhra Pradesh and Telangana), who have been living precariously on illegally occupied forest lands for almost 20 years. In a recent meeting of the National Commission of Scheduled Tribes (NCST), a representative from the Chhattisgarh government stated that around 10,000 Gond tribals have been displaced to other States due to ongoing violence, and most of them do not want to return. Representatives from Telangana and Andhra Pradesh reported that they have 24,000 and 8,000 displaced tribals, respectively, from Chhattisgarh.

The NCST has ordered a proper survey of the displaced people in three months. The same order was issued in 2019, but Chhattisgarh said they could not conduct the survey then, due to the COVID-19 pandemic. The attitude of the Chhattisgarh government has slightly improved. In a written reply to a Congress MLA from Bastar a few years ago, the then Home Minister of Chhattisgarh stated in the Vidhan Sabha: "Because no tribal has been displaced due to ongoing violence in Bastar to other States, hence there is no question of their rehabilitation."

In the absence of any national or international law for Internally Displaced People (IDPs) which India abides by, these tribals have been the subject of atrocities over the years – from forest officials, police, and even local tribals who view them as encroachers on their resources. Maoists have not allowed them to go back, and State authorities in Andhra Pradesh and Telangana are reluctant to treat them as tribals.

As per Clause 3.1(m) of the Forest Rights Act (FRA), if a tribal person was forced to vacate a

forest land under her possession before the cut-off date of December 13, 2005, the State must provide her with alternative forest land. Many IDPs in Andhra Pradesh and Telangana have applied under this clause, requesting alternative forest land in these States. However, the Chhattisgarh government has been sitting on those applications for over five years. The clause does not say that alternative land cannot be given in a different State. Yet, Chhattisgarh has not raised the issue with either the Ministry of Tribal Affairs in Delhi or Andhra Pradesh and Telangana, despite repeated requests.

Under the 2019 Bru Rehabilitation Plan, Bru tribals were given the option of either going back to Mizoram or staying back in Tripura with lesser State support. Over the past 20 years, a new generation of Gutti Koya tribals has grown up in Andhra Pradesh and Telangana, but they have been denied State support as tribals because both governments treat them as "migrants who cannot be given tribal status." In the NCST meeting, representatives of both States said, "We try to give support to these displaced tribals on humanitarian grounds, but we cannot do much. The Central Home Ministry should intervene here, as they have done in the case of other Internally Displaced People elsewhere."

Most of the displaced tribals, mainly from the new generation, are attracted towards more economic opportunities available in Andhra Pradesh and Telangana and wish to stay. Telangana has taken over farmlands of many displaced tribals, planting trees there as part of a renewed effort to push them back to Chhattisgarh, and Andhra Pradesh has discouraged any efforts to build new houses in the forest by violently destroying them. Courts have occasionally offered relief to displaced tribals, but they are looking for a permanent settlement so that the new generation can live a life of dignity.

## Call for Permanent Settlement for Tribals

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur  
Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)  
Contact Number : 9971932488  
Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



## आदिवासियों के लिए स्थायी पुनर्वास की मांग

Around 50,000 Gond tribals were forced to migrate to undivided Andhra Pradesh in 2005 due to the **Government of India's 'strategic hamleting' programme aimed at eliminating Maoists in Chhattisgarh.**

2005 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में माओवादियों को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किए गए 'स्ट्रैटेजिक हैमलेटिंग' कार्यक्रम के कारण लगभग 50,000 गोंड आदिवासी को अविभाजित आंध्र प्रदेश में पलायन करने के लिए मजबूर किया गया।

- The programme, inspired by a similar model in **1960s South Vietnam**, eventually failed. 1960 के दशक के दक्षिण वियतनाम में लागू एक समान मॉडल से प्रेरित यह कार्यक्रम अंततः विफल रहा।
- While some tribals returned to the forests, others who feared Maoists joined the **security forces**.  
कुछ आदिवासी जंगलों में वापस चले गए, जबकि जो माओवादियों से डरते थे, उन्होंने सुरक्षा बलों में शामिल हो गए।
- These dislocated tribals now form the **backbone** of security forces fighting Maoists in Chhattisgarh.  
ये विस्थापित आदिवासी अब छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ लड़ रही सुरक्षा बलों की रीढ़ बन चुके हैं।
- Many **surrendered Maoists** have also joined them.  
कई समर्पित माओवादी भी इनसे जुड़ चुके हैं।
- **Unlike central forces, these tribals know the terrain and language, making them effective in the operations.**  
केंद्रीय बलों के विपरीत, ये आदिवासी इलाके और भाषा से परिचित हैं, जिससे वे प्रभावी सिद्ध हुए हैं।
- **Home Minister Amit Shah** has announced that the war against Maoists will be over by **March 31, 2026**.  
गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि माओवादियों के खिलाफ युद्ध 31 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा।

## Historical Background of Strategic Hamlet Programme

### स्ट्रैटेजिक हैमलेट कार्यक्रम का ऐतिहासिक संदर्भ

- A similar strategy was used in **1949, post-Independence, to fight Telangana communist revolutionaries**.  
1949, आज़ादी के बाद, इसी तरह की रणनीति का उपयोग तेलंगाना के कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए किया गया था।



- Hundreds of tribals were recruited as “special police constables”, often with rudimentary weapons like spears and axes.  
सैकड़ों आदिवासियों को "विशेष पुलिस कांस्टेबल" के रूप में भर्ती किया गया, जिनके पास केवल भाले और कुल्हाड़ियों जैसे साधारण हथियार थे।
- One such group was the “Tiger Squad” of Koya tribals, which had around 300 members.  
एक ऐसा ही समूह था कोया आदिवासियों का “टाइगर स्क्वाड”, जिसमें लगभग 300 सदस्य थे।
- The strategy succeeded in Mizoram in the 1960s, leading to a peace deal with Mizo fighters.  
1960 के दशक में मिज़ोरम में यह रणनीति सफल रही, जिससे मिज़ो लड़ाकों के साथ शांति समझौता हुआ।
- Later, in 2019, Mizo tribals clashed with Bru (Reang) tribals, prompting the Centre to launch a Bru rehabilitation plan.  
बाद में, 2019 में, मिज़ो आदिवासियों का ब्रू (रियांग) आदिवासियों से संघर्ष हुआ, जिससे केंद्र ने ब्रू पुनर्वास योजना शुरू की।

## Gutti Koya Tribals Still Deprived of Rights

### गुट्टी कोया आदिवासी अब भी अधिकारों से वंचित

- The Gutti Koya tribals have been living on illegally occupied forest lands in Andhra Pradesh and Telangana for nearly 20 years.  
गुट्टी कोया आदिवासी लगभग 20 वर्षों से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अवैध रूप से कब्जा की गई वन भूमि पर रह रहे हैं।
- In a recent NCST meeting, Chhattisgarh reported about 10,000 displaced Gond tribals, most unwilling to return.  
हाल की राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की बैठक में छत्तीसगढ़ ने बताया कि लगभग 10,000 गोंड आदिवासी विस्थापित हुए हैं और अधिकांश वापस नहीं लौटना चाहते।
- Telangana and Andhra Pradesh reported having 24,000 and 8,000 displaced tribals, respectively.  
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने क्रमशः 24,000 और 8,000 विस्थापित आदिवासियों की रिपोर्ट दी।
- NCST ordered a survey within 3 months, but a similar order in 2019 was not implemented due to COVID-19.  
NCST ने 3 महीने के भीतर सर्वेक्षण का आदेश दिया, लेकिन 2019 में दिया गया ऐसा ही आदेश COVID-19 के कारण लागू नहीं हो सका।
- Earlier, Chhattisgarh had denied any displacement, saying there was no need for rehabilitation.  
पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी भी विस्थापन से इनकार करते हुए कहा था कि पुनर्वास की कोई आवश्यकता नहीं है।



## Lack of Legal Protection for Internally Displaced Tribals

### भीतरी रूप से विस्थापित आदिवासियों के लिए कानूनी संरक्षण की कमी

- There is no **national or international law** for **Internally Displaced People (IDPs)** that India follows.  
भारत ऐसे किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करता है जो भीतरी रूप से विस्थापित लोगों (IDPs) के लिए बना हो।
- These tribals have faced **atrocities** from forest officials, police, and local tribals.  
इन आदिवासियों को वन अधिकारियों, पुलिस और स्थानीय आदिवासियों से अत्याचारों का सामना करना पड़ा है।
- Maoists do not allow them to return, and Andhra Pradesh and Telangana refuse to **recognise them as tribals**.  
माओवादी उन्हें वापस जाने नहीं देते, और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना उन्हें आदिवासी के रूप में मान्यता नहीं देते।

## Forest Rights Act Clause Ignored

### वन अधिकार अधिनियम की धारा की अनदेखी

- As per **Clause 3.1(m) of FRA**, tribals evicted before **December 13, 2005**, must be given **alternative forest land**.  
वन अधिकार अधिनियम (FRA) की धारा 3.1(m) के अनुसार, यदि किसी आदिवासी को 13 दिसंबर 2005 से पहले बेदखल किया गया हो, तो उसे वैकल्पिक वन भूमि दी जानी चाहिए।
- Many IDPs applied under this clause, but Chhattisgarh has **not processed applications for 5 years**.  
कई विस्थापितों ने इस धारा के तहत आवेदन किया, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार 5 वर्षों से इन आवेदनों पर कार्रवाई नहीं कर रही है।
- The clause does not bar **inter-State allocation**, but Chhattisgarh hasn't raised the issue with Delhi, Telangana, or Andhra Pradesh.  
यह धारा राज्य के बाहर भूमि आवंटन से नहीं रोकती, फिर भी छत्तीसगढ़ ने दिल्ली, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के साथ यह मुद्दा नहीं उठाया है।

## Contrast with Bru Rehabilitation Plan

### ब्रू पुनर्वास योजना के साथ तुलना

- Under the **2019 Bru plan**, tribals could return to **Mizoram** or stay in **Tripura** with reduced State support.  
2019 की ब्रू योजना के तहत, आदिवासी मिज़ोरम लौट सकते थे या त्रिपुरा में कम सहायता के साथ रह सकते थे।



- The **new generation of Gutti Koya tribals** has grown up in Andhra Pradesh and Telangana, but are **denied tribal status**.  
गुट्टी कोया आदिवासियों की नई पीढ़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पली-बढ़ी है, लेकिन उन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया।
- State governments say they offer only **humanitarian support** and have urged the **Central Home Ministry** to intervene.  
राज्य सरकारें कहती हैं कि वे केवल मानवता के आधार पर सहायता देती हैं और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप की अपील की है।

## State Hostility Towards Displaced Tribals

### विस्थापित आदिवासियों के प्रति राज्यों का विरोधात्मक रवैया

- Most young tribals prefer staying due to **better economic opportunities** in these States.  
अधिकतर युवा आदिवासी बेहतर आर्थिक अवसरों के कारण इन राज्यों में रहना पसंद करते हैं।
- **Telangana** has taken over their farmland for **tree plantation** to push them back.  
तेलंगाना ने इन्हें वापस भेजने के लिए उनकी खेती की जमीन पर वृक्षारोपण किया है।
- **Andhra Pradesh** has **destroyed new houses** built in forests by displaced tribals.  
आंध्र प्रदेश ने जंगलों में विस्थापितों द्वारा बनाए गए नए घरों को तोड़ दिया है।

Courts have occasionally offered **relief**, but tribals seek a **permanent settlement** for a life of **dignity**.

कभी-कभी न्यायालयों ने राहत दी है, लेकिन आदिवासी सम्मानपूर्ण जीवन के लिए स्थायी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।

### Bru (Reang) Tribals

#### ब्रू (रींग) जनजाति

- The **Bru (also known as Reang)** are one of the **21 Scheduled Tribes of Tripura** and are also found in **Mizoram** and **Assam**.  
ब्रू (जिन्हें रींग भी कहा जाता है), त्रिपुरा की 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक हैं, और ये मिज़ोरम और असम में भी पाए जाते हैं।
- They are recognized as a **Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG)** in **Tripura**.  
इन्हें त्रिपुरा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

#### Language and Religion

#### भाषा और धर्म

- They speak the **Reang dialect**, which is associated with the **Kokborok** language group of the **Tibeto-Burman** family.  
ये लोग रींग बोली बोलते हैं, जो तिब्बती-बर्मी परिवार की कोकबोरोक भाषा समूह से संबंधित है।



- Bru tribes mostly follow **Hinduism**, and worship **deities like Lakshmi, Shiva**, and other **forest spirits**.  
ब्रू जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म को मानती है और लक्ष्मी, शिव और अन्य वन देवताओं की पूजा करती है।

### Conflict and Displacement

#### संघर्ष और विस्थापन

- In **1997**, following **ethnic tensions** in **Mizoram**, thousands of Bru people were **displaced** and took refuge in **Tripura**, living in **relief camps** for over **two decades**.  
1997 में मिज़ोरम में जातीय तनाव के चलते हजारों ब्रू लोगों को विस्थापित होना पड़ा और उन्होंने त्रिपुरा में शरण ली, जहां वे दो दशकों से अधिक समय तक राहत शिविरों में रहे।
- The displacement was triggered after the **killing of a Mizo forest guard**, allegedly by Bru militants.  
यह विस्थापन तब शुरू हुआ जब एक मिज़ो वन रक्षक की हत्या हुई, जिसे ब्रू उग्रवादियों द्वारा किया गया बताया गया।

## TOPICS COVERED GS Paper II: Polity, Governance, and International Relations)

### 1. SC wary of denotifying Waqf-by-user lands

उपयोगकर्ता द्वारा स्थापित वकफ भूमि को अमान्य घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सतर्क

### 2. NCW Forms Panel to Investigate Violence in Murshidabad

मुर्शिदाबाद में हिंसा की जांच के लिए एनसीडब्ल्यू ने पैनल बनाया

### 3. Northeastern Region is Gateway to Southeast Asia, says Jaishankar

पूर्वोत्तर क्षेत्र दक्षिण-पूर्व एशिया का द्वार है, जयशंकर ने कहा



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



#### 4. Chief Justice Khanna Recommends Justice Gavai as Successor

मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने न्यायमूर्ति गवई को उत्तराधिकारी के रूप में अनुशंसित किया

#### 5. How China is Fighting U.S. Tariffs

कैसे चीन अमेरिकी शुल्कों का सामना कर रहा है

#### 6. WTO Forecasts Global Merchandise Trade to Fall 0.2% Amid Tariff Tensions

टैरिफ तनाव के बीच WTO ने वैश्विक वस्तु व्यापार में 0.2% गिरावट का अनुमान जताया

PATRIOTIC IAS



# SC wary of denotifying Waqf-by-user lands

CJI Khanna, hearing around 100 petitions over the Waqf Act, proposes a three-point interim order to 'balance equities'; court adjourns hearing without passing any interim order; petitioners questions provision in the 2025 Act which mandated a person to prove he had been a practising Muslim for 5 years before dedicating his property as Waqf

GS Paper II: FR

**Krishnadas Rajagopal**  
NEW DELHI

The Supreme Court on Wednesday questioned provisions of the Waqf (Amendment) Act, 2025 which de-recognised the "established" Waqf-by-user category of property, allowed non-Muslims into Waqf administrative bodies, and granted the state power to determine if a property was Waqf or government's.

During the two-hour hearing of around 100 petitions in a packed courtroom, Chief Justice of India Sanjiv Khanna, heading a three-judge Bench, went on to propose a three-point interim order to "balance equities" on all sides in the case.

### Three points

First, he suggested that properties already declared Waqf by courts need not, for the time being, be denotified or treated as

non-Waqf properties. These would include properties categorised as "Waqf-by-user" or Waqf by long usage without formal documentation or registration, Waqf by declaration or "otherwise".

Second, the Chief Justice mooted that the designated government officer could continue to look into whether a property was Waqf or government's, but a connected proviso freezing the use of the property in the meanwhile as Waqf could be stayed.

Third, Chief Justice Khanna mulled giving the go-ahead to the appointment of non-Muslims as ex-officio members in the Central Waqf Council and Waqf Boards, provided the other members were Muslims.

However, the government stalled the passing of any interim order, seeking more time to argue. The case was adjourned to 2 p.m. on Thursday without an interim order or is-

### Raising questions

Some of the amendments which came under the spotlight in the SC hearing:

- 1 Inclusion of non-Muslim members to the Central Waqf Council and State Waqf Boards
- 2 Insertion of inheritance rights in Waqf Alal Aulad. This alters the principle that dedication of a Waqf is absolute

Many of these Waqfs were created hundreds of years ago. Where do you find the records?

**KAPIL SIBAL**  
Advocate for the petitioners

If a Muslim wanted to do charity, he could come out of the Waqf fold to perform his benevolence

**TUSHAR MEHTA**  
Solicitor-General of India

Denotification of Waqf-by-user properties would lead to a huge problem...

Many of the masjids were constructed in the 14th, 15th and 17th centuries. Asking them to produce a sale deed

now is an impossibility

**SANJIV KHANNA**  
Chief Justice of India

suance of notice to the Centre.

The Chief Justice said the court would not normally intervene with legislation passed by Parliament, but there were exceptions. The CJI voiced concern that denotification of Waqf-by-user properties would lead to a "huge problem".

"Before the Britishers came, we did not have land registration law or Transfer of Property Act. Many of the masjids were constructed in the 14th, 15th, and 17th centuries. Asking them to produce a registered sale deed now is an impossibility, like in the case of Jama Masjid, which is Waqf-by-user property. If

you had established 'Waqf-by-user' in the versions of the Waqf Act prior to the 2025 Amendment Act, can it be made void now?" Chief Justice Khanna asked Solicitor-General Tushar Mehta who was representing the Union government. Senior advocate Kapil Sibal, for the petitioners, said "who was the state to

say I cannot be a Waqf-by-user? Many of these Waqfs were created hundreds of years ago. Where do you find the records?"

Senior advocate A.M. Singhvi, also for the petitioners, said four out of eight lakh Waqfs were Waqf-by-user properties.

### 'How to register?'

Mr. Mehta said these properties could be registered. But the CJI asked how the government intended to "register" Waqf-by-user? There would be no documents.

The petitioners questioned a provision in the 2025 Act which mandated a person to prove he had been a practising Muslim for five years before dedicating his property as Waqf. This clause, they said, was a violation of Article 26 (the right to form and maintain institutions for religious and charitable intents) of the Constitution.

"In short, I have to

prove to the state that I am a good Muslim," Mr. Sibal said.

Mr. Mehta said if a Muslim wanted to do charity, he could come out of the Waqf fold and perform his benevolence.

Senior advocate Rajeev Dhavan said the basis of the petitioners' attack was that a Waqf was essential to Islam. "Charity is an essential practice of Islam. The Act triggers a loss of control of our religion in favour of the state," he submitted.

Justice K.V. Viswanathan asked when Hindu religious endowments were controlled by Hindus, could a law allow persons from other religions to govern Waqf administrative bodies.

Mr. Mehta objected to petitioners' argument that the Centre had "usurped" the Central Waqf Council.

CJI Khanna also referred to the communal violence in West Bengal over the Act as "very disturbing".

## SC wary of denotifying Waqf-by-user lands

उपयोगकर्ता द्वारा स्थापित वकफ भूमि को अमान्य घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सतर्क

## Hearing of Petitions and Court Observations

### याचिकाओं की सुनवाई और न्यायालय की टिप्पणियाँ

- The Supreme Court on **Wednesday** raised questions over provisions of the **Waqf (Amendment) Act, 2025**, especially the **derecognition of "Waqf-by-user" properties, inclusion of non-Muslims in Waqf administrative bodies, and giving state power to decide whether a property was Waqf or government-owned.**

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वकफ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों पर सवाल उठाए, विशेषकर "उपयोगकर्ता द्वारा स्थापित वकफ" संपत्तियों को अमान्य करने, गैर-मुस्लिमों को वकफ प्रशासनिक निकायों में शामिल करने, और यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार को देने को लेकर कि संपत्ति वकफ है या सरकारी।

## Interim Order Proposal by CJI

### मुख्य न्यायाधीश द्वारा अंतरिम आदेश का प्रस्ताव



Chief Justice of India **Sanjiv Khanna**, heading a three-judge bench, proposed a **three-point interim order** to “balance equities”.

भारत के मुख्य न्यायाधीश **संजय खन्ना**, जो तीन-न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रहे थे, ने “संतुलन बनाने” के लिए **तीन-बिंदु अंतरिम आदेश** का प्रस्ताव रखा।

- Properties already declared as Waqf by courts should **not be denotified** or treated as non-Waqf for now. This includes “**Waqf-by-user**”, Waqf by long usage, declaration, or otherwise.  
न्यायालय द्वारा पहले से घोषित वक्फ संपत्तियों को अभी **अमान्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए** या गैर-वक्फ नहीं माना जाना चाहिए। इसमें “**उपयोगकर्ता द्वारा स्थापित वक्फ**”, लंबे समय से उपयोग में रही संपत्तियाँ, घोषणा द्वारा बनी वक्फ आदि शामिल हैं।
- A designated government officer can examine if a property is Waqf or government's, but the **freezing of its use** as Waqf can be **stayed** for now.  
एक नामित सरकारी अधिकारी यह जांच सकता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी, लेकिन उस संपत्ति के **वक्फ के रूप में उपयोग को रोकने** वाले प्रावधान को अभी **स्थगित किया जा सकता है**।
- Appointment of **non-Muslims as ex-officio members** in Waqf bodies may be allowed if **other members are Muslims**.  
**गैर-मुस्लिमों** को वक्फ निकायों में **पदेन सदस्य** के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है, यदि **अन्य सदस्य मुस्लिम** हों।

## Government Seeks Time

### सरकार ने समय मांगा

- The government **opposed** passing any interim order and **requested more time**. The hearing was **adjourned to 2 p.m. on Thursday** without an interim order or issuing notice to the Centre.  
सरकार ने किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने का **विरोध किया** और **अधिक समय मांगा**। सुनवाई को **गुरुवार दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया**, बिना किसी अंतरिम आदेश या केंद्र को नोटिस दिए।

## CJI on Legal and Historical Context

### मुख्य न्यायाधीश द्वारा कानूनी और ऐतिहासिक संदर्भ में टिप्पणी

- CJI said courts generally do not interfere with laws passed by Parliament but there can be **exceptions**. He raised concern that **denotifying Waqf-by-user** properties could cause a **huge problem**.  
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सामान्यतः अदालतें संसद द्वारा पारित कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करतीं, लेकिन **अपवाद** हो सकते हैं। उन्होंने “**उपयोगकर्ता द्वारा स्थापित वक्फ**” संपत्तियों को अमान्य करने से **बड़ी समस्या उत्पन्न होने की आशंका** जताई।



- He pointed out that **before the British era, there was no land registration law or Transfer of Property Act**, and many mosques were constructed in the **14th, 15th, and 17th centuries**.

उन्होंने बताया कि ब्रिटिश काल से पहले भूमि पंजीकरण कानून या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम नहीं था, और कई मस्जिदें 14वीं, 15वीं और 17वीं शताब्दी में बनाई गई थीं।

- Asking for **registered sale deeds** now for such properties like **Jama Masjid** is not possible.  
ऐसी संपत्तियों के लिए अब पंजीकृत बिक्री विलेख मांगना, जैसे कि **जामा मस्जिद**, संभव नहीं है।

## Petitioners' Arguments

### याचिकाकर्ताओं की दलीलें

- Senior advocate **Kapil Sibal** argued that the state cannot deny the concept of **Waqf-by-user**, as many **Waqfs** were created **hundreds of years ago** and **records don't exist**.  
वरिष्ठ वकील **कपिल सिबल** ने कहा कि राज्य "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" को नकार नहीं सकता, क्योंकि कई वक्फ **सैकड़ों साल पहले** बनाए गए थे और उनके **रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं**।
- Senior advocate **A.M. Singhvi** added that out of **eight lakh Waqfs**, **four lakh were Waqf-by-user**.  
वरिष्ठ अधिवक्ता **ए.एम. सिंघवी** ने कहा कि **आठ लाख वक्फ** में से **चार लाख वक्फ उपयोगकर्ता द्वारा** स्थापित हैं।

## Issue of Registration

### पंजीकरण का मुद्दा

- Solicitor General **Tushar Mehta** claimed these properties can be **registered**, but CJI questioned **how** such **Waqf-by-user** properties can be registered without **documents**.  
सॉलिसिटर जनरल **तुषार मेहता** ने दावा किया कि इन संपत्तियों को **पंजीकृत** किया जा सकता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि बिना **दस्तावेजों** के ऐसी **उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ** संपत्तियों को **कैसे** पंजीकृत किया जाएगा?

## Controversial Clause in 2025 Act

### 2025 अधिनियम में विवादास्पद प्रावधान

- Petitioners objected to a clause requiring a person to prove that he had been a **practising Muslim for 5 years** before dedicating property as Waqf.  
याचिकाकर्ताओं ने उस प्रावधान का विरोध किया जिसमें किसी व्यक्ति को वक्फ के रूप में संपत्ति समर्पित करने से पहले **5 वर्षों तक मुस्लिम होने का प्रमाण** देना आवश्यक बताया गया है।
- They argued that it **violated Article 26 of the Constitution (right to manage religious and charitable affairs)**.



उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 26 (धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं के संचालन का अधिकार) का उल्लंघन है।

- Kapil Sibal remarked, “I have to **prove to the state** that I am a **good Muslim**.”  
कपिल सिब्बल ने टिप्पणी की, “मुझे राज्य को यह साबित करना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा मुस्लिम हूँ।”

## Government's Stand on Charity

### सरकार का रुख धर्मार्थ कार्यों पर

Mr. Mehta said a Muslim can choose to perform **charity outside** of the Waqf framework.

मेहता ने कहा कि एक मुस्लिम व्यक्ति वक्फ ढांचे के बाहर भी धर्मार्थ कार्य कर सकता है।

## Religious Autonomy Concerns

### धार्मिक स्वायत्तता को लेकर चिंताएं

- Senior advocate **Rajeev Dhavan** argued that **charity** is an **essential practice of Islam**, and the Act causes a **loss of religious control** to the state.  
वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने दलील दी कि धर्मार्थ कार्य इस्लाम की एक अनिवार्य प्रथा है, और यह अधिनियम राज्य को धार्मिक नियंत्रण का नुकसान पहुंचाता है।
- Justice **K.V. Viswanathan** asked whether a law can allow people of **other religions** to administer Waqf when **Hindu endowments** are governed by **Hindus**.  
न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने पूछा कि जब हिंदू धर्मस्थलों का संचालन हिंदू करते हैं, तो क्या वक्फ का संचालन अन्य धर्मों के लोग कर सकते हैं?

## Government Response on Control of Council

### केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया वक्फ परिषद पर नियंत्रण को लेकर

- Mr. Mehta objected to the claim that the Centre had “**usurped**” the **Central Waqf Council**.  
मेहता ने इस दावे का विरोध किया कि केंद्र ने केंद्रीय वक्फ परिषद पर “कब्जा” कर लिया है।

## Court Mentions West Bengal Violence

### न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में हिंसा का उल्लेख किया



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- CJI Khanna referred to the communal violence in West Bengal related to the Act as “very disturbing.”

मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने इस अधिनियम से संबंधित पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा को “अत्यंत चिंताजनक” बताया।

## NCW forms panel to investigate violence in Murshidabad

GS Paper II: NCW

Shrabana Chatterjee

KOLKATA

The National Commission for Women (NCW) on Wednesday took *suo motu cognisance* of the situation in West Bengal’s Murshidabad district and formed a team to investigate the violence over the Waqf (Amendment) Act.

A parallel crisis is unfolding at the relief camps in adjacent Malda district as displaced residents reportedly face a severe shortage of essential medicines.

In a statement, the NCW stated that there were reports of women being harassed amid communal clashes in the district. The statement added: “The NCW Chairperson has taken *suo motu cognisance* of a deeply disturbing report from Murshidabad, West Bengal, where several women were reportedly molested amid communal violence, triggering the exodus of hundreds of women. The Chairperson has also constituted an Inquiry Committee to investigate

the incident.”

The commission’s Chairperson, Vijaya Rahatkar, is set to visit the violence-hit areas and speak to survivors on April 19. The team will arrive in West Bengal on Thursday.

### Health crisis

In a related development, a health crisis is brewing at the relief camps in Malda, sources said. People living in Parlalpur High School refugee camp at Deonapur in the district are facing a shortage of vital medicines, despite the government setting up a small medical facility inside the school, which houses over 400 persons who had fled their homes in Murshidabad after violence erupted.

A resident at the relief camp told the media that though two doctors visit the site twice a day, there were no drugs for chronic ailments like heart disease.

While basic medicines for fever, pain relief and such issues are available, drugs to treat emergencies and chronic health conditions are not, sources said.

## NCW Forms Panel to Investigate Violence in Murshidabad

मुर्शिदाबाद में हिंसा की जांच के लिए

एनसीडब्ल्यू ने पैनल बनाया

The National Commission for Women (NCW) on Wednesday took *suo motu cognisance* of the situation in Murshidabad district, West Bengal.

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया।

- It formed a team to investigate the violence related to the Waqf (Amendment) Act.

यह टीम वक्फ (संशोधन) अधिनियम से संबंधित हिंसा की जांच के लिए बनाई गई।

- A parallel crisis is unfolding in relief camps in adjacent Malda district due to a severe shortage of essential medicines.

समानांतर संकट मालदा जिले के राहत शिविरों में सामने आ रहा है, जहां आवश्यक दवाओं की भारी कमी है।

- In a statement, the NCW reported incidents of women being harassed amid communal clashes.

अपने बयान में NCW ने बताया कि सांप्रदायिक झड़पों के दौरान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं।

- The NCW said the Chairperson took *suo motu cognisance* of a deeply disturbing report from Murshidabad.

NCW ने कहा कि अध्यक्ष ने मुर्शिदाबाद से आई एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)

Contact Number : 9971932488

Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



- The report mentioned that several women were **molested** during the **communal violence**, leading to the **exodus of hundreds of women**.  
रिपोर्ट में कहा गया कि कई महिलाओं के साथ दंगा के दौरान छेड़छाड़ की गई, जिससे सैकड़ों महिलाएं पलायन करने को मजबूर हो गईं।
- The Chairperson has constituted an **Inquiry Committee** to investigate the incident.  
अध्यक्ष ने घटना की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है।
- **NCW Chairperson Vijaya Rahatkar** will visit the **violence-hit areas** and speak to **survivors** on **April 19**.  
**NCW अध्यक्ष विजया रहाटकर 19 अप्रैल को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी और पीड़ितों से मिलेंगी।**
- The team will arrive in **West Bengal** on **Thursday**.  
टीम गुरुवार को पश्चिम बंगाल पहुंचेगी।

## Health Crisis in Relief Camps in Malda

### मालदा के राहत शिविरों में स्वास्थ्य संकट

- A **health crisis** is emerging at **relief camps** in **Malda district**, sources said.  
सूत्रों के अनुसार मालदा जिले के राहत शिविरों में स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है।
- At **Parlarpur High School** refugee camp in **Deonapur**, over **400 people** who fled from **Murshidabad** are **living without adequate medical support**.  
देओनापुर के परलालपुर हाई स्कूल राहत शिविर में 400 से अधिक लोग, जो मुर्शिदाबाद से भागे थे, पर्याप्त चिकित्सीय सहायता के बिना रह रहे हैं।
- Although the **government** has set up a **small medical facility** inside the camp, there is a **shortage of vital medicines**.  
हालांकि सरकार ने शिविर के भीतर एक छोटा सा चिकित्सीय केंद्र स्थापित किया है, लेकिन वहां जरूरी दवाओं की कमी है।
- A resident said that **two doctors** visit **twice a day**, but there are **no medicines** for **chronic illnesses** such as **heart disease**.  
एक निवासी ने बताया कि दो डॉक्टर प्रतिदिन दो बार आते हैं, लेकिन हृदय रोग जैसे दीर्घकालिक रोगों की दवाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- Only **basic medicines** like those for **fever and pain relief** are available.  
केवल बुखार और दर्द से राहत देने वाली मूलभूत दवाएं ही उपलब्ध हैं।
- There are **no drugs** to treat **emergencies** or **chronic health conditions**, sources added.  
सूत्रों ने बताया कि आपात स्थितियों या दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज के लिए कोई दवाएं नहीं हैं।



# Northeastern region is gateway to Southeast Asia, says Jaishankar

GS Paper II: Act East Policy and ASEAN

**Kalol Bhattacharjee**

NEW DELHI

Weeks after the Chief Adviser of Bangladesh's interim government, Muhammad Yunus, referred to India's northeastern region as "landlocked", External Affairs Minister S. Jaishankar on Wednesday highlighted the region as a "gateway to Southeast Asia".

In a virtual address to the Ambassadors' meet of the North East Investors Summit, 2025, Mr. Jaishankar spoke about the potential of the region and encouraged investors to take advantage of what it had to offer.

"The northeastern region is at the heart of many key Indian policies – it could be 'neighbourhood' first, Act East or BIMSTEC. The northeast adjoins five of our neighbours on land.



It is at the heart of many key Indian policies – it could be 'neighbourhood' first, Act East or BIMSTEC. The northeast adjoins five of our neighbours on land

**S. JAISHANKAR**  
Minister of External Affairs

Its boundaries are the interface between the Indian subcontinent and the ASEAN. Many of our recent initiatives involving immediate neighbours emanate from this very region," Mr. Jaishankar said.

The remarks from the External Affairs Minister comes a fortnight after Mr. Yunus created controversy by referring to the northeastern region as a "landlocked" territory that could be an "extension" of

the Chinese market. The Ministry of External Affairs had not made an official response, though India terminated transshipment of cargo from Bangladesh through India's land and airports citing "congestion" following the remarks.

"Highlighted the growing relevance of the northeast – as a gateway to Southeast Asia, a tourism hub and a contributor to the global workplace," said

Mr. Jaishankar in a remark on X.

"We are seeking to address long-standing challenges, some emanating from our past history," Mr. Jaishankar said, highlighting the 'Purvodaya' scheme of the Government of India that he described as an "endeavour in that regard". Mr. Jaishankar also said the government had highlighted the tourism potential of northeastern States during the run-up to the 2023 G-20 summit in Delhi when some of the preparatory meetings had been held there. He also spoke of the trilateral highway that aims to connect India and Thailand through Myanmar and the Kaladan Multimodal Transit Transport Project (KMTTP) that was conceived to connect the northeast with Myanmar's port of Sittwe.

## Northeastern Region is Gateway to Southeast Asia, says Jaishankar

**पूर्वोत्तर क्षेत्र दक्षिण-पूर्व एशिया का द्वार है, जयशंकर ने कहा**

Weeks after the Chief Adviser of Bangladesh's interim government, Muhammad Yunus, called India's northeastern region "landlocked", External Affairs Minister S. Jaishankar called it a "gateway to Southeast Asia".

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार, मुहम्मद यूनुस द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को "भूमिबद्ध" कहे जाने के कुछ सप्ताह बाद, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसे "दक्षिण-पूर्व एशिया का द्वार" बताया।



- He made the remarks during a **virtual address** at the **Ambassadors' meet** of the **North East Investors Summit 2025**.  
उन्होंने यह टिप्पणी **नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025** के राजदूतों की बैठक में **ऑनलाइन संबोधन** के दौरान की।
- Mr. Jaishankar spoke about the **potential of the northeastern region** and urged **investors** to make use of its offerings.  
श्री जयशंकर ने **पूर्वोत्तर क्षेत्र की संभावनाओं** पर बात की और **निवेशकों** से इसके अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया।
- He said the **northeast is central to several Indian policies like 'Neighbourhood First', 'Act East', and BIMSTEC**.  
उन्होंने कहा कि **पूर्वोत्तर क्षेत्र** भारत की कई नीतियों जैसे **'नेबरहुड फर्स्ट', 'एक्ट ईस्ट', और बिम्सटेक** का केंद्र है।
- The **northeast borders five countries** on land and acts as an **interface between the Indian subcontinent and ASEAN**.  
**पूर्वोत्तर क्षेत्र पांच देशों** की सीमा से जुड़ा है और **भारतीय उपमहाद्वीप और ASEAN** के बीच एक कड़ी का कार्य करता है।
- Many of India's **initiatives with neighbours** begin from this region, he added.  
उन्होंने कहा कि भारत की कई **पड़ोसी देशों से जुड़ी पहलें** इसी क्षेत्र से शुरू होती हैं।
- These remarks came two weeks after **Mr. Yunus's controversial statement** describing the northeast as **"landlocked"** and an **"extension of the Chinese market"**.  
ये टिप्पणियां श्री **यूनस के विवादित बयान** के दो सप्ताह बाद आई हैं, जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर को **"भूमिबद्ध"** और **"चीनी बाजार का विस्तार"** कहा था।
- India had **terminated cargo transshipment** from Bangladesh through **Indian land and airports**, citing **"congestion"**, after the remarks.  
भारत ने इन टिप्पणियों के बाद, **"भीड़भाड़"** का हवाला देते हुए **बांग्लादेश से भारतीय भूमि और हवाई अड्डों के माध्यम से माल के पारगमन को समाप्त** कर दिया।
- Mr. Jaishankar said the northeast is becoming a **gateway to Southeast Asia**, a **tourism hub**, and a **contributor to the global workplace**.  
श्री जयशंकर ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र **दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार, पर्यटन केंद्र, और वैश्विक कार्यबल में योगदानकर्ता** बनता जा रहा है।
- He also emphasized efforts to resolve **long-standing challenges**, rooted in **historical issues**.  
उन्होंने **ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न दीर्घकालिक चुनौतियों** के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी जोर दिया।
- He cited the **'Purvodaya' scheme** as an initiative by the government in this direction.  
उन्होंने सरकार की ओर से **'पूर्वोदय योजना'** को इस दिशा में एक प्रयास बताया।
- The tourism potential of **northeastern states** was highlighted during the **G-20 summit preparations in 2023**, when some meetings were held in the region.



2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन संभावनाओं को उजागर किया गया था, जब कुछ बैठकें इस क्षेत्र में आयोजित हुई थीं।

- He also referred to the **trilateral highway project connecting India and Thailand via Myanmar, and the Kaladan Multimodal Transit Transport Project (KMTTP) connecting the northeast to Myanmar's Sittwe port.**

उन्होंने भारत और थाईलैंड को म्यांमार के माध्यम से जोड़ने वाले त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना और पूर्वोत्तर को म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह से जोड़ने वाली कालादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना (KMTTP) का भी उल्लेख किया।

## Chief Justice Khanna recommends Justice Gavai as successor

GS Paper II: Judiciary

The Hindu Bureau

NEW DELHI

Chief Justice of India Sanjiv Khanna, who is set to retire on May 13, on Wednesday recommended Justice B.R. Gavai to the government for appointment as the 52nd Chief Justice of India.

Justice Gavai was elevated as a judge of the Supreme Court on May 24, 2019. He is due to retire on November 23, 2025, leaving him with a tenure of little over six months.

### Next in line

Justice Gavai is the next in line to be Chief Justice of India in accordance with the seniority norm. Under the Memorandum of Procedure for appointment of Chief Justice of India and Supreme Court Judges, the Law Ministry seeks the re-



Justice B.R. Gavai

commendation of the outgoing Chief Justice about the next appointment. The letter from the government kickstarts the appointment process for the next Chief Justice of India.

Born on November 24, 1960 at Amravati, Justice Gavai joined the Bar on March 16, 1985. Justice Gavai's father, Ramkrishna Suryabhan Gavai, was a former Governor of Bihar and a prominent Dalit leader.

## Two Maoists shot dead in encounter in Chhattisgarh

The Hindu Bureau

RAIPUR

Two Maoists, carrying a collective bounty of ₹13 lakh, were killed in an encounter with security forces along the Kondagaon-Narayanpur boundary of Chhattisgarh's Bastar region on Tuesday, the police said.

Sharing details of the encounter, a senior police officer said on Wednesday that the gunfight had taken place in the forest of Kilam-Bargum villages along the inter-district boundary.

The encounter was carried out by a joint team of security personnel including the District Reserve Guard (DRG) and Bastar Fighters from Kondagaon, said Inspector-General of Police (Bastar Range) P. Sundarraj.

## Chief Justice Khanna Recommends Justice Gavai as Successor

मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने

न्यायमूर्ति गवई को

उत्तराधिकारी के रूप में

अनुशंसित किया

Chief Justice of India Sanjiv Khanna, who is set to retire on May 13, has recommended Justice B.R. Gavai to the government for appointment as the 52nd Chief Justice of India.

भारत के मुख्य न्यायाधीश

संजीव खन्ना, जो 13 मई को

सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ने

सरकार को न्यायमूर्ति बी.आर.

गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा भेजी है।



- Justice Gavai was elevated as a **Supreme Court judge** on **May 24, 2019**.  
न्यायमूर्ति गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
- He is set to **retire on November 23, 2025**, giving him a **tenure of a little over six months** as Chief Justice.  
वे 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे, जिससे उनके पास मुख्य न्यायाधीश के रूप में छह महीने से थोड़ा अधिक का कार्यकाल होगा।
- Justice Gavai is **next in line** to be Chief Justice of India, according to the **seniority norm**.  
वरिष्ठता के आधार पर, न्यायमूर्ति गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्रम में अगली पंक्ति में हैं।
- As per the **Memorandum of Procedure**, the **Law Ministry** seeks the recommendation of the **outgoing Chief Justice** for the next appointment.  
न्युक्ति प्रक्रिया की जापन प्रक्रिया के अनुसार, कानून मंत्रालय निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश से अगले नियुक्ति के लिए अनुशंसा प्राप्त करता है।
- The **recommendation letter** from the Chief Justice begins the **appointment process** for the next Chief Justice.  
मुख्य न्यायाधीश का अनुशंसा पत्र, अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत करता है।
- Justice B.R. Gavai was **born on November 24, 1960**, in Amravati.  
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती में हुआ था।
- He **joined the Bar on March 16, 1985**, beginning his legal career.  
उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की, और अपने कानूनी करियर की शुरुआत की।
- His father, **Ramkrishna Suryabhan Gavai**, was a **former Governor of Bihar** and a **prominent Dalit leader**.  
उनके पिता, रामकृष्ण सूर्यभान गवई, बिहार के पूर्व राज्यपाल और एक प्रमुख दलित नेता थे।



# How China is fighting U.S. tariffs

The most unexpected development following the launch of Trump's trade war has been China's retaliation. Its long-term strategy of hedging against risk, from the actions of an aggressive trade partner, has enabled the country to counter one of the worst trade-related escalations in modern history

GS Paper II

## ECONOMIC NOTES

**Biswajit Dhar**

In the three months since U.S. President Donald Trump launched his "America First" trade policy, weaponising trade to extract concessions from his partner countries, there are indications that it could bring the global economy to its knees.

"Reciprocal tariffs" were proposed as a key component for eliminating what Mr. Trump perceived as "unfair trade practices" of partner countries.

But on April 9, the day this instrument was to take effect, President Trump did a turnaround and the implementation of "reciprocal tariffs" was postponed by 90 days for all 57 target countries, except China.

The objective of the U.S. administration is to compel its trade partners to negotiate bilateral agreements within the stipulated period, through which they offer concessions to American stakeholders. The Trump administration's expectation is that trade partners would then be forced to reduce their trade deficits vis-à-vis the U.S., an overarching trade policy objective of the new President.

### A trade war

China had declared right from the beginning, even as the U.S. President was laying down the contours of this aggressive trade policy, that it would challenge the decision to impose "reciprocal tariffs". And as anticipated, China announced its decision to impose retaliatory tariffs equivalent to the 34% "reciprocal tariff" that it faced, in response to which Mr. Trump imposed an additional tariff of 50%, raising the overall tariff burden to 104%. China then escalated the trade war by imposing 125% tariffs on all its imports from the U.S., which led to the White House increasing tariffs again to 145%.

However, in the midst of this escalation, Washington tacitly admitted to the potential impact these tariffs would bring by exempting a number of critical electronic goods, including computers, laptops, smartphones, and semiconductor devices, from such tariffs, reflecting the overwhelming dependence of the U.S. on import of these products. There is still confusion about the same in the Trump administration, which was evident when Commerce Secretary, Howard Lutnick, informed that tariffs on electronics products would be included within semiconductor tariffs in a "month or two", only to be contradicted by the President, who declared that these tariffs would be imposed sooner. The "America First" trade policy is causing much chaos, with its adverse implications impossible to gauge at this juncture.

Two sets of issues arise as Donald Trump's trade war continues to hold the global economy to ransom. First, can the 90-day pause in the implementation of "reciprocal tariffs" provide the Trump team opportunities to stitch together at least a few agreements that would allow the "dealmaker" President to wax eloquent about his accomplishments? Secondly, what explains Xi Jinping's extraordinary defiance against Donald Trump's all-out attempt to corner Beijing? And more importantly, does Mr. Xi have a strong trump card with which he can effectively corner Donald Trump and his "America First" trade policy?

### The U.S.'s negotiating agenda

Though Donald Trump's decision to pause the implementation of "reciprocal

Both China and Japan lowered their holding of U.S. treasury bonds over the years, although Japan's holding increased slightly since 2023. China's has fallen lower than that of Japan. As of January 2025, China's holding reduced to \$761 billion and just 8.9% of the overall treasury bonds. The corresponding numbers for Japan are \$1079.3 billion and 12.7% respectively



Chart 1: China and Japan's holdings in U.S. treasury bonds (in \$ billion)





Chart 2: China and Japan's shares of total U.S. treasury bonds (in %)



tariffs" to push his trade partners to conclude bilateral deals made immediate headlines, the move was part of a strategy that the President's advisers had worked out well before he took office. Stephen Marin, chair of the U.S. council of economic advisers, had argued in a paper published immediately after Donald Trump's election as President that "tariffs create negotiating leverage for incentivising better terms from the rest of the world on both trade and security terms. America would encourage other nations to move to lower tariff tiers, improving burden sharing". Peter Navarro, senior counselor for trade and manufacturing, explained that the 90-day pause was "part of a calculated negotiating tactic", and "a demonstration of Trump's signature dealmaking style".

These explanations would no doubt be immensely satisfying for the President, but the question is whether trade deals can actually be re-negotiated with at least a few targeted countries. This seems improbable for at least two reasons. Under the Trump administration, the U.S.' negotiating approach has undergone a major change, as the *de jure* trade negotiator, the U.S. Trade Representative (USTR) is no longer in charge of negotiations. Peter Navarro revealed that Trump, "the boss, is going to be chief negotiator. Nothing is done without him looking very carefully at it." When the head of the government of the world's largest economy decides to micro-manage trade deals, it is possibly safe to conclude that negotiations would be a non-starter.

A second problem for the U.S. is that it has a gargantuan negotiating agenda, a peek into which was provided in a recent USTR report – the National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers. This report highlights "significant foreign barriers to U.S. exports, U.S. foreign direct investment

and U.S. electronic commerce" in India and 56 other countries. It identifies "unfair trade practices [undermining] U.S. exporters' competitiveness and, in some cases, [preventing] U.S./ goods from entering the foreign market entirely". It can, therefore, be argued that unless these "unfair trade practices" identified by the USTR are removed, the U.S. President's aspiration of "Making America Great Again" cannot be realised.

If Trump has to secure this grand bargain, India, for instance, would have to open its agricultural markets for U.S. agri-business, lower its agricultural subsidies, discontinue its public distribution system, and amend its Patents Act risking the future of India's generic pharmaceutical companies providing affordable medicines. India would also have to discontinue policies that the U.S. has repeatedly red-flagged, including data localisation, and regulations on genetically modified crops and dairy products. Would India and other targeted countries allow Donald Trump to coerce them into amending their laws and policies to "clinch" a trade deal?

### China's strategy

The most unexpected development following the launch of Trump's trade war has been China's retaliation. In his first term as President, Mr. Trump had forced China to ink an enforceable Economic and Trade Agreement in 2020, acceding to several of his demands. But over the past five years, the nature of the U.S.-China trade relationship has changed drastically, which could explain the push back from the world's second largest economy. In 2018, the U.S. was China's largest export market with a 19.2% share. But over the past six years, China reduced this figure to below 15% and in the first quarter of 2025, only 13.5% of China's

exports reached the U.S. At the same time, China has diversified its export markets, with ASEAN emerging as the most significant destination. Several major economies, including India, Vietnam, and the Russian Federation, have seen an appreciable increase of the Chinese footprint in their economies. This is a remarkable instance of hedging against risk, from the actions of an aggressive trade partner, which has enabled China so far to counter one of the worst trade-related escalations in modern history.

By diversifying its exports as a part of its defensive strategy, China is in a position to leverage its two significant strengths to force the hands of its aggressor. The first is China's control over the rare earth market, accounting for 92% of global output. China has already shown its hand by imposing export restrictions on seven types of rare earth minerals in the past few days.

A second advantage for China is its position as the second largest holder of U.S. Treasury bonds, but in recent years, it has been gradually selling its holdings. Since 2018, China has reduced its holdings from \$1.2 trillion (22% of the total) to \$761 billion (less than 9%) in January 2025 (see Charts). Though it seems unlikely at this juncture that China would take the risk of dumping its holding to challenge the U.S., any further escalation of the trade war can alter the situation.

Given this grave risk of economic disruption, major economies must coordinate their efforts to ensure that the U.S. President abandons unilateralism, and reposes his faith in multilateralism as the way forward.

*Biswajit Dhar is a retired Professor, Jawaharlal Nehru University and Distinguished Professor, Council for Social Development.*

## THE GIST

China had declared right from the beginning, even as the U.S. President was laying down the contours of this aggressive trade policy, that it would challenge the decision to impose "reciprocal tariffs".

Though Donald Trump's decision to pause the implementation of "reciprocal tariffs" to push his trade partners to conclude bilateral deals made immediate headlines, the move was part of a strategy that the President's advisers had worked out well before he took office.

By diversifying its exports as a part of its defensive strategy, China is in a position to leverage its two significant strengths to force the hands of its aggressor.

## How China is Fighting U.S. Tariffs

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : info@patrioticias.in**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : patrioticias.in**



## कैसे चीन अमेरिकी शुल्कों का सामना कर रहा है

The most unexpected development following the launch of Trump's trade war has been China's retaliation. Its long-term strategy of hedging against risk, from the actions of an aggressive trade partner, has enabled the country to counter one of the worst trade-related escalations in modern history.

ट्रंप के व्यापार युद्ध की शुरुआत के बाद सबसे अप्रत्याशित घटनाक्रम चीन की प्रतिकार रही है। एक आक्रामक व्यापार साझेदार की कार्रवाइयों से बचाव के लिए चीन की दीर्घकालिक रणनीति ने देश को आधुनिक इतिहास के सबसे खराब व्यापार-संबंधी वृद्धि का सामना करने में सक्षम बनाया।

- In the three months since **U.S. President Donald Trump** launched his “**America First**” trade policy, weaponizing trade to extract concessions from his partner countries, there are indications that it could bring the **global economy to its knees**.  
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपनी “अमेरिका फर्स्ट” व्यापार नीति की शुरुआत के बाद से, व्यापार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपने साझेदार देशों से रियायतें प्राप्त करने की कोशिश, यह संकेत मिल रहे हैं कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को झुका सकता है।
- “**Reciprocal tariffs**” were proposed as a key component for eliminating what Mr. Trump perceived as “**unfair trade practices**” of partner countries.  
“पारस्परिक शुल्क” को उन “अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाओं” को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जो श्री ट्रंप ने साझेदार देशों की मानी थी।
- But on **April 9**, the day this instrument was to take effect, President Trump did a **turnaround** and the implementation of “**reciprocal tariffs**” was postponed by **90 days** for all **57 target countries**, except China.  
लेकिन **9 अप्रैल** को, जिस दिन इस उपकरण को प्रभावी होना था, राष्ट्रपति ट्रंप ने **मोड़** लिया और “पारस्परिक शुल्क” को **90 दिनों** के लिए स्थगित कर दिया, सभी **57 लक्ष्य देशों** के लिए, चीन को छोड़कर।
- The objective of the **U.S. administration** is to compel its trade partners to negotiate bilateral agreements within the stipulated period, through which they offer **concessions** to **American stakeholders**.  
अमेरिकी प्रशासन का उद्देश्य अपने व्यापार साझेदारों को निर्धारित अवधि के भीतर द्विपक्षीय समझौते करने के लिए मजबूर करना है, जिसके माध्यम से वे **अमेरिकी हितधारकों** को रियायतें देंगे।
- The Trump administration's expectation is that trade partners would then be forced to reduce their trade **deficits** vis-à-vis the U.S., an overarching trade policy objective of the new President.



ट्रंप प्रशासन की उम्मीद है कि व्यापार साझेदारों को फिर अमेरिका के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जो नए राष्ट्रपति का प्रमुख व्यापार नीति उद्देश्य है।

## A Trade War

### व्यापार युद्ध

- China had declared right from the beginning, even as the U.S. President was laying down the contours of this aggressive trade policy, that it would challenge the decision to impose “reciprocal tariffs”.  
चीन ने शुरू से ही घोषित किया था, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति इस आक्रामक व्यापार नीति की रूपरेखा बना रहे थे, कि वह “पारस्परिक शुल्क” लगाने के निर्णय को चुनौती देगा।
- And as anticipated, China announced its decision to impose **retaliatory tariffs** equivalent to the **34% “reciprocal tariff”** that it faced, in response to which Mr. Trump imposed an additional **tariff of 50%**, raising the overall tariff burden to **104%**.  
और जैसा कि अपेक्षित था, चीन ने **34% “पारस्परिक शुल्क”** के बराबर **प्रतिकार शुल्क** लगाने का अपना निर्णय घोषित किया, जिसके जवाब में श्री ट्रंप ने अतिरिक्त **50% शुल्क** लागू किया, जिससे कुल शुल्क भार **104%** तक बढ़ गया।
- China then escalated the trade war by imposing **125% tariffs** on all its imports from the U.S., which led to the **White House increasing tariffs again to 145%**.  
चीन ने फिर व्यापार युद्ध को बढ़ाते हुए **125% शुल्क** अपने सभी आयातों पर अमेरिका से लगाया, जिसके परिणामस्वरूप **व्हाइट हाउस ने फिर से शुल्क बढ़ाकर 145% कर दिया।**
- However, in the midst of this escalation, Washington tacitly admitted to the potential impact these tariffs would bring by exempting a number of critical electronic goods, including **computers, laptops, smartphones, and semiconductor devices**, from such tariffs.  
हालांकि, इस वृद्धि के बीच, वाशिंगटन ने इन शुल्कों के संभावित प्रभाव को न स्वीकार करते हुए कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सामानों, जैसे कि **कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर उपकरणों**, को इन शुल्कों से छूट दी, जो इन उत्पादों पर अमेरिकी निर्भरता को दर्शाता है।
- There is still confusion about the same in the Trump administration, which was evident when **Commerce Secretary, Howard Lutnick**, informed that tariffs on **electronics products** would be included within **semiconductor tariffs** in a “month or two”, only to be contradicted by the President, who declared that these tariffs would be imposed sooner.  
इस बारे में अभी भी ट्रंप प्रशासन में उलझन है, जो तब स्पष्ट हुआ जब **वाणिज्य सचिव, हार्वर्ड लुटनिक** ने बताया कि **इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों** पर शुल्क **सेमीकंडक्टर शुल्कों** में एक या दो महीने में जोड़े जाएंगे, जिसे राष्ट्रपति ने विरोध करते हुए कहा कि ये शुल्क पहले लागू होंगे।
- The “**America First**” trade policy is causing much **chaos**, with its **adverse implications** impossible to gauge at this juncture.



"अमेरिका फर्स्ट" व्यापार नीति अराजकता का कारण बन रही है, जिसके नकारात्मक प्रभाव इस समय मापने में असंभव हैं।

## The U.S.'s Negotiating Agenda

### अमेरिका की वार्ता की कार्यसूची

- Though Donald Trump's decision to pause the implementation of "**reciprocal tariffs**" to push his trade partners to conclude bilateral deals made immediate headlines, the move was part of a strategy that the President's advisers had worked out well before he took office.  
हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप का यह निर्णय कि वह "**पारस्परिक शुल्क**" को लागू करने को स्थगित कर देंगे ताकि वह अपने व्यापार साझेदारों को द्विपक्षीय समझौते करने के लिए प्रेरित कर सकें, तुरंत सुर्खियों में आया, लेकिन यह कदम एक रणनीति का हिस्सा था जिसे राष्ट्रपति के सलाहकारों ने उनके कार्यालय संभालने से पहले तैयार किया था।
- **Stephen Marin**, chair of the **U.S. Council of Economic Advisers**, had argued in a paper published immediately after Donald Trump's election as President that "tariffs create negotiating leverage for incentivizing better terms from the rest of the world on both trade and security terms."  
**यूएस काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र्स** के अध्यक्ष **स्टीफन मरीन** ने, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद प्रकाशित एक पत्र में कहा था कि "शुल्क अन्य देशों से **व्यापार और सुरक्षा** संबंधी बेहतर शर्तें प्राप्त करने के लिए वार्ता में दबाव बनाने का एक उपकरण हैं।"
- **Peter Navarro**, senior counselor for trade and manufacturing, explained that the **90-day pause** was "part of a **calculated negotiating tactic**", and "a demonstration of Trump's **signature dealmaking style**".  
**पीटर नवरो**, व्यापार और विनिर्माण के वरिष्ठ सलाहकार ने समझाया कि **90 दिनों का स्थगन** "एक गणना की गई वार्ता रणनीति का हिस्सा था", और "यह ट्रंप की **विशेष सौदेबाजी शैली** का प्रदर्शन था।"
- These explanations would no doubt be immensely satisfying for the President, but the question is whether **trade deals** can actually be renegotiated with at least a few targeted countries.  
यह व्याख्याएँ निस्संदेह राष्ट्रपति के लिए अत्यधिक संतोषजनक होंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या **व्यापार सौदे** वास्तव में कुछ लक्षित देशों के साथ फिर से बातचीत की जा सकती है।
- This seems improbable for at least two reasons.  
कम से कम दो कारणों से यह संभावना नहीं लगती।
- Under the Trump administration, the **U.S. negotiating approach** has undergone a major change, as the de jure **trade negotiator**, the **U.S. Trade Representative (USTR)** is no longer in charge of negotiations.  
ट्रंप प्रशासन के तहत, **अमेरिकी वार्ता दृष्टिकोण** में एक बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि **अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR)** अब वार्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं।



- **Peter Navarro** revealed that Trump, “the boss, is going to be **chief negotiator**. Nothing is done without him looking very carefully at it.”  
पीटर नवरो ने यह खुलासा किया कि ट्रंप, “बॉस, मुख्य वार्ताकार होंगे। उनके बिना कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वह उसे बहुत ध्यान से देखेंगे।”
- A second problem for the U.S. is that it has a **gargantuan negotiating agenda**, a peek into which was provided in a recent **USTR report** — the **National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers**.  
अमेरिका के लिए दूसरा समस्या यह है कि उनके पास एक विशाल वार्ता कार्यसूची है, जिसका एक झलक हाल ही में **USTR रिपोर्ट** — **नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट ऑन फॉरेन ट्रेड बैरियर्स** में प्रदान की गई।
- This report highlights “**significant foreign barriers to U.S. exports, U.S. foreign direct investment and U.S. electronic commerce** in India and 56 other countries.  
यह रिपोर्ट भारत और 56 अन्य देशों में “महत्वपूर्ण विदेशी बाधाओं” को रेखांकित करती है जो अमेरिकी निर्यात, अमेरिकी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के खिलाफ हैं।
- It identifies “**unfair trade practices**” undermining **U.S. exporters’ competitiveness** and, in some cases, **preventing U.S./ goods from entering the foreign market entirely**.  
यह “अत्याचारपूर्ण व्यापार प्रथाएँ” को पहचानती है जो अमेरिकी निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करती हैं और कुछ मामलों में अमेरिकी/ सामानों को विदेशी बाजार में पूरी तरह से प्रवेश करने से रोकती हैं।
- If Trump has to secure this grand bargain, **India**, for instance, would have to open its **agricultural markets** for **U.S. agri-business**, lower its **agricultural subsidies**, discontinue its **public distribution system**, and amend its **Patents Act** risking the future of **India’s generic pharmaceutical companies** providing **affordable medicines**.  
अगर ट्रंप को यह बड़ा सौदा सुरक्षित करना है, तो भारत, उदाहरण के लिए, को अपने **कृषि बाजारों** को अमेरिकी **कृषि-व्यवसाय** के लिए खोलना होगा, **कृषि सब्सिडी** को कम करना होगा, **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** को बंद करना होगा और अपने **पेटेंट अधिनियम** में संशोधन करना होगा, जिससे **भारत की जेनेरिक फार्मास्युटिकल कंपनियों** का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, जो **सस्ती दवाइयाँ** प्रदान करती हैं।
- India would also have to discontinue policies that the U.S. has repeatedly **red-flagged**, including **data localization**, and **regulations on genetically modified crops and dairy products**.  
भारत को भी उन नीतियों को समाप्त करना होगा जिन्हें अमेरिका ने बार-बार **लाल झंडा** दिखाया है, जिसमें **डेटा स्थानीयकरण** और **\*\*जेनेटिकली मोडिफाइड फसलों**

## China’s Strategy

### चीन की रणनीति

- The most unexpected development after the launch of **Trump’s trade war** has been **China’s retaliation**.  
ट्रंप के व्यापार युद्ध की शुरुआत के बाद सबसे अप्रत्याशित विकास रहा चीन की प्रतिक्रिया।



- During his first term, Mr. Trump forced China to sign an **Economic and Trade Agreement** in **2020**, accepting several of his demands.  
अपने पहले कार्यकाल के दौरान, श्री ट्रंप ने **2020** में चीन को एक **आर्थिक और व्यापार समझौते** पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें उन्होंने अपनी कई मांगें मनवा लीं।
- Over the past **five years**, the nature of the **U.S.-China trade relationship** has changed drastically.  
पिछले **पाँच वर्षों** में **अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों** की प्रकृति में भारी बदलाव आया है।
- In **2018**, the U.S. was **China's largest export market** with a **19.2% share**.  
**2018** में अमेरिका **चीन का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार** था, जिसकी हिस्सेदारी **19.2%** थी।
- By the **first quarter of 2025**, China reduced this share to **13.5%**.  
**2025 की पहली तिमाही** तक, चीन ने इस हिस्सेदारी को घटाकर **13.5%** कर दिया।
- China has diversified its **export markets**, with **ASEAN** becoming the most significant destination.  
चीन ने अपने **निर्यात बाज़ारों में विविधता** लाकर **आसियान** को सबसे प्रमुख गंतव्य बना लिया है।
- Major economies like **India, Vietnam, and Russia** have seen an increased **Chinese footprint**.  
**भारत, वियतनाम और रूस** जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में **चीनी प्रभाव** में वृद्धि देखी गई है।
- This shift shows a **remarkable example of hedging against risk** from an aggressive trade partner.  
यह बदलाव एक **आक्रामक व्यापार साझेदार से जोखिम से बचाव का उल्लेखनीय उदाहरण** दर्शाता है।
- This strategy has helped China **counter one of the worst trade escalations** in modern history.  
इस रणनीति ने चीन को **आधुनिक इतिहास के सबसे खराब व्यापार युद्धों में से एक का मुकाबला** करने में सक्षम बनाया है।
- By **diversifying exports**, China can now leverage **two major strengths**.  
**निर्यात में विविधता लाकर**, अब चीन अपनी दो प्रमुख ताकतों का लाभ उठा सकता है।
- **First**, China controls **92% of the global rare earth market**.  
**पहली**, चीन **दुनिया के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के बाज़ार का 92%** नियंत्रित करता है।
- Recently, China imposed **export restrictions on seven types of rare earth minerals**.  
हाल ही में, चीन ने **सात प्रकार के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर निर्यात प्रतिबंध** लगाए हैं।

**Second, China is the second-largest holder of U.S. Treasury bonds.**

**दूसरी, चीन अमेरिकी ट्रेज़री बॉन्ड्स का दूसरा सबसे बड़ा धारक है।**

- Since **2018**, China has reduced its holdings from **\$1.2 trillion (22%) to \$761 billion (less than 9%) by January 2025**.  
**2018** से, चीन ने अपनी होल्डिंग को **\$1.2 ट्रिलियन (22%) से घटाकर जनवरी 2025 तक \$761 बिलियन (9% से कम)** कर दिया है।
- Although unlikely for now, if the **trade war escalates**, China might consider **dumping these holdings**.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



हालांकि अभी इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर व्यापार युद्ध और बढ़ता है, तो चीन इन होल्डिंग्स को बेचने का विकल्प अपना सकता है।

This poses a **grave risk of global economic disruption.**

यह वैश्विक आर्थिक व्यवधान का गंभीर जोखिम प्रस्तुत करता है।

- Major economies must coordinate efforts to urge the **U.S. President to abandon unilateralism.**  
प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रयासों का समन्वय करना चाहिए ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति को एकतरफा रवैया छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके।
- There is a need to re-establish faith in **multilateralism** as the future path.  
बहुपक्षवाद में विश्वास बहाल करना समय की आवश्यकता है और यही भविष्य का मार्ग है।

PATRIOTIC IAS

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



# WTO forecasts global merchandise trade to fall 0.2% amid tariff tensions

Trade could shrink even further to 1.5% in 2025, if the situation deteriorates, it says in the **Global Trade Outlook** and Statistics report; this will be in sharp contrast to 2024, when the volume of world merchandise trade grew by 2.9%

GS Paper II: International Trade

**The Hindu Bureau**  
HYDERABAD

The World Trade Organization (WTO) on Wednesday revised sharply its global merchandise trade volume growth forecast for 2025 – from a continued expansion it had expected when the year dawned – to a decline by 0.2%, amid fears over the U.S. tariff developments.

The volume of world merchandise trade is expected to decline by 0.2% under current conditions,

## Solid blow

A slide under current conditions, would be three percentage points lower than expected under a low tariff baseline scenario



which would be nearly three percentage points lower than what would have been expected under

a low tariff baseline scenario, it said. Trade could shrink even further to 1.5% in 2025, if the situation de-

teriorates, it said in the Global Trade Outlook and Statistics report. This will be in sharp contrast to 2024 when the volume grew by 2.9%. Risks to the merchandise trade forecast persist, WTO said. If the U.S. goes ahead with the reciprocal tariffs, it expects the move would reduce global merchandise trade volume growth by 0.6 percentage points this year. Additionally, the spreading trade policy uncertainty could shave off another 0.8 percentage points. Together, recip-

cal tariffs and spreading trade policy uncertainty would lead to a 1.5% decline in world merchandise trade in 2025, WTO said.

Earlier on Wednesday, the United Nations Conference on Trade and Development said it expected global growth to slow to 2.3% in 2025. This will mark a shift toward a recessionary path. Subdued demand, trade policy shocks, financial turbulence and systemic uncertainty are bound to intensify pressures, particularly for developing countries.

## WTO Forecasts Global Merchandise Trade to Fall 0.2% Amid Tariff Tensions

टैरिफ तनाव के बीच WTO ने वैश्विक वस्तु व्यापार में 0.2% गिरावट का

अनुमान जताया

The World Trade Organization (WTO) on Wednesday revised its 2025 global merchandise trade volume forecast to a decline of 0.2%, instead of growth.

विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने बुधवार को अपने 2025 के वैश्विक वस्तु व्यापार मात्रा के अनुमान को संशोधित करते हुए 0.2% की गिरावट का अनुमान जताया, जबकि पहले इसमें वृद्धि की उम्मीद थी।

- The downward revision is due to fears over U.S. tariff developments.  
यह नकारात्मक संशोधन अमेरिका में टैरिफ संबंधी घटनाक्रमों के डर के कारण हुआ है।
- Under current conditions, the volume of world merchandise trade is expected to decline by 0.2%.  
वर्तमान परिस्थितियों में, वैश्विक वस्तु व्यापार की मात्रा में 0.2% की गिरावट की संभावना है।



- This figure is **nearly three percentage points lower** than what was earlier expected under a **low tariff scenario**.  
यह आंकड़ा **कम टैरिफ परिदृश्य** की तुलना में लगभग **तीन प्रतिशत अंक कम** है।
- If the situation worsens, trade could **shrink even further to 1.5% in 2025**, WTO warned in its **Global Trade Outlook and Statistics report**.  
अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो व्यापार **2025 में और घटकर 1.5%** तक जा सकता है, WTO ने अपनी **वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट** में चेतावनी दी।
- This would be in **sharp contrast to 2024**, when **world merchandise trade grew by 2.9%**.  
यह **2024 के बिलकुल विपरीत** होगा, जब **वैश्विक वस्तु व्यापार में 2.9% की वृद्धि दर्ज** की गई थी।
- **Risks to the trade forecast** still remain, according to WTO.  
WTO के अनुसार, **व्यापार पूर्वानुमान के लिए जोखिम** अब भी बने हुए हैं।
- If the **U.S. implements reciprocal tariffs**, it could reduce **global trade volume growth by 0.6 percentage points in 2025**.  
अगर **अमेरिका पारस्परिक टैरिफ** लागू करता है, तो इससे **2025 में वैश्विक व्यापार वृद्धि दर 0.6 प्रतिशत अंक कम** हो सकती है।
- **Trade policy uncertainty** spreading globally could reduce growth by an **additional 0.8 percentage points**.  
**वैश्विक रूप से फैल रही व्यापार नीति की अनिश्चितता** से व्यापार वृद्धि में **अतिरिक्त 0.8 प्रतिशत अंक की गिरावट** आ सकती है।
- Together, **reciprocal tariffs and policy uncertainty** would lead to a **total 1.5% decline in 2025 world merchandise trade**, WTO noted.  
WTO के अनुसार, **पारस्परिक टैरिफ और नीति अनिश्चितता** मिलकर **2025 में वैश्विक वस्तु व्यापार में कुल 1.5% की गिरावट** ला सकते हैं।
- Also on Wednesday, the **United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)** projected that **global economic growth would slow to 2.3% in 2025**.  
बुधवार को ही, **संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD)** ने अनुमान लगाया कि **वैश्विक आर्थिक विकास 2025 में घटकर 2.3%** रह जाएगा।
- This signals a potential **shift towards a recessionary path**.  
यह संभावित रूप से **मंदी के मार्ग की ओर बदलाव का संकेत** देता है।
- **Subdued demand, trade shocks, financial turbulence, and systemic uncertainty** are expected to intensify economic pressures.  
**कमजोर मांग, व्यापार झटके, वित्तीय अस्थिरता, और प्रणालीगत अनिश्चितता** से आर्थिक दबाव और बढ़ सकते हैं।

These challenges will particularly affect **developing countries** more severely.

ये चुनौतियाँ **विकासशील देशों** को विशेष रूप से अधिक प्रभावित करेंगी।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



**TOPICS COVERED GS Paper III: Economy, S&T, Environment, DM, IS)**

**1. Almonds Rein in Weight, Cholesterol and Hypertension, Confirms Study**

बादाम वजन, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं,  
अध्ययन पुष्टि करता है

**2. Good News, and Bad: On the Economy**

अच्छी और बुरी खबरें: अर्थव्यवस्था पर

**3. Shaping a Response to the U.S.'s Reciprocal Tariffs**

अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ़ के प्रति प्रतिक्रिया तैयार करना

PATRIOTIC IAS

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)**



# Almonds rein in weight, cholesterol and hypertension, confirms study

GS Paper III: S&T

**Ramya Kannan**

CHENNAI

Recent meta-analyses of studies on the benefits of consuming almonds published in a peer-reviewed journal have shown that the tree nut does leave an ameliorative impact in a multitude of sectors.

The results suggest that almond consumption results in small reductions in weight, LDL cholesterol and diastolic blood pressure, as well as improved glycaemic responses in Asian Indians.

These results were published recently in a paper, "Current scientific evidence and research strategies in the role of almonds in cardiometabolic health", in the peer-reviewed journal *Current Developments in Nutrition Perspective*.

The analyses of multiple studies showed that al-



Almonds lower LDL cholesterol, says the new paper. ISTOCK

mond consumption does not lead to weight gain, and may even contribute to reduction in body weight at doses of about 50 grams a day.

The authors from the U.S., Canada, France and India argued that almonds have an impact on lowering cholesterol, though it depends on the dose (over 50 g a day), and for how long it is eaten (10 weeks). Almond consumption results in a small but significant reduction in LDL chol-

esterol by approximately 5 g/dL (or about 5%) for the general population, including those at risk of chronic diseases.

Anoop Misra, senior diabetologist from the Fortis C-DOC Center for Diabetes, Obesity, Metabolic Diseases, and Endocrinology, New Delhi, explains that almonds contain several components that are believed to contribute to the cholesterol-lowering properties, "including Beta-Sitosterol for which there is well-established evidence of lowering LDL cholesterol levels; monounsaturated fats (67%); polyunsaturated fats (11%); and dietary fibre (11%)."

The analyses, which was funded by the Almond Board of California, also states that with a daily dose of almonds, Asian Indians with prediabetes can achieve a significant reduc-

tion in fasting blood glucose and HbA1C.

Dr. Misra adds some context: "Previously, our group examined over three months, the effect of having 20 g of almonds 30 minutes before each major meal on prediabetes. We found significant improvements in body weight, waist circumference, glycaemic control (particularly postprandial hyperglycemia), and insulin resistance. Notably, 23.3% of participants in the group showed reversal from prediabetes to normal glucose regulation, comparable to results seen with Acarbose medication (25%)."

"My advice is to have almonds, half a fistful each in the morning and evening. For people with diabetes, they can have it as a snack between meals or 30 minutes before meals," he says.

## Almonds Rein in Weight, Cholesterol and Hypertension, Confirms Study

बादाम वजन, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं, अध्ययन पुष्टि करता है

Recent meta-analyses of studies on the benefits of consuming almonds, published in a peer-reviewed journal, have shown a positive impact in multiple health sectors.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



बादाम के सेवन पर हाल ही में प्रकाशित समीक्षित जर्नल में किए गए अध्ययनों की मेटा-विश्लेषण में कई स्वास्थ्य क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पाया गया है।

- The results indicate that **almond consumption** leads to small reductions in **weight**, **LDL cholesterol**, and **diastolic blood pressure**, and improves **glycaemic responses** in **Asian Indians**.  
परिणाम दर्शाते हैं कि बादाम का सेवन वजन, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में थोड़ी कमी लाता है और एशियाई भारतीयों में ग्लाइसेमिक प्रतिक्रिया को सुधारता है।
- The findings were published in the paper titled “**Current scientific evidence and research strategies in the role of almonds in cardiometabolic health**”, in the journal **Current Developments in Nutrition Perspective**.  
ये निष्कर्ष “**Current scientific evidence and research strategies in the role of almonds in cardiometabolic health**” शीर्षक वाले शोधपत्र में प्रकाशित हुए, जो **Current Developments in Nutrition Perspective** नामक जर्नल में छपा है।
- Analyses of several studies show that **almonds do not cause weight gain**, and may even lead to **weight reduction** at a daily dose of **about 50 grams**.  
कई अध्ययनों के विश्लेषण से पता चला है कि बादाम वजन नहीं बढ़ाते, बल्कि प्रतिदिन लगभग 50 ग्राम की मात्रा में सेवन करने पर वजन घटाने में मदद कर सकते हैं।
- Researchers from the **U.S., Canada, France, and India** found that **almonds help reduce cholesterol**, depending on the **dose (over 50g per day)** and **duration (10 weeks)** of consumption.  
अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और भारत के शोधकर्ताओं ने पाया कि बादाम कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि मात्रा (50 ग्राम प्रतिदिन से अधिक) और अवधि (10 सप्ताह) कितनी है।
- Almond consumption causes a **small but significant reduction in LDL cholesterol** by approximately **5 g/dL (or about 5%)** in the general population, including those at risk of **chronic diseases**.  
बादाम के सेवन से सामान्य जनसंख्या में, जिनमें पुरानी बीमारियों का खतरा होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में लगभग 5 ग्राम/डीएल (लगभग 5%) की मामूली लेकिन महत्वपूर्ण कमी आती है।
- According to **Dr. Anoop Misra**, senior diabetologist at **Fortis C-DOC**, almonds contain multiple components that aid in **cholesterol reduction**, such as **Beta-Sitosterol**, **monounsaturated fats (67%)**, **polyunsaturated fats (11%)**, and **dietary fibre (11%)**.  
डॉ. अनुप मिश्रा, जो फोर्टिस सी-डॉक के वरिष्ठ मधुमेह विशेषज्ञ हैं, के अनुसार बादाम में कई घटक होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं, जैसे बीटा-सिटोस्टेरोल, मोनोअनसेचुरेटेड फैट (67%), पॉलीअनसेचुरेटेड फैट (11%), और आहार फाइबर (11%)।
- The study, **funded by the Almond Board of California**, shows that daily almond intake helps **Asian Indians with prediabetes** reduce **fasting blood glucose** and **HbA1C** significantly.



कैलिफ़ोर्निया बादाम बोर्ड द्वारा वित्तपोषित इस अध्ययन में पाया गया कि प्रति दिन बादाम सेवन से पूर्व-मधुमेह से पीड़ित एशियाई भारतीयों में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और HbA1C में महत्वपूर्ण कमी आती है।

- Dr. Misra added that his team conducted a **three-month study**, where **20g of almonds** were consumed **30 minutes before each major meal**.  
डॉ. मिश्रा ने बताया कि उनकी टीम ने तीन महीने का अध्ययन किया, जिसमें प्रत्येक प्रमुख भोजन से 30 मिनट पहले 20 ग्राम बादाम का सेवन कराया गया।
- The study observed **significant improvements** in **body weight, waist circumference, glycaemic control** (especially **postprandial hyperglycemia**) and **insulin resistance**.  
अध्ययन में वजन, कमर की माप, ग्लाइसेमिक नियंत्रण (विशेषकर भोजन के बाद हाई शुगर) और इंसुलिन रेजिस्टेंस में महत्वपूर्ण सुधार पाया गया।
- **23.3% of participants** reversed from **prediabetes to normal glucose regulation**, which is comparable to **Acarbose medication (25%)**.  
23.3% प्रतिभागियों में पूर्व-मधुमेह से सामान्य ब्लड ग्लूकोज नियंत्रण की स्थिति में बदलाव हुआ, जो कि अकारबोस दवा (25%) के समान है।
- Dr. Misra advises that people should consume **half a fistful of almonds in the morning and evening**.  
डॉ. मिश्रा की सलाह है कि लोग सुबह और शाम को आधी मुट्ठी बादाम का सेवन करें।
- For people with **diabetes**, almonds can be taken **as a snack between meals or 30 minutes before meals**.  
मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए, भोजन के बीच नाश्ते के रूप में या भोजन से 30 मिनट पहले बादाम लेना फायदेमंद हो सकता है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



## Good news, and bad

As retail inflation ebbs, government must move to improve farmer income

India's March retail inflation was down to a near six-year low of 3.34%, making it almost certain that the Reserve Bank of India (RBI) will cut its banks' lending rate further over the next few Monetary Policy Committee meetings. The repo rate has already been cut twice in a row, by 25 basis points (bps) each, in February and April, bringing it down from 6.5% to 6%, signalling the emphasis on growth, amid global trade uncertainties, as the RBI's concern over non-core inflation eases. Vegetable prices have plummeted over the past four months from the highs of October 2024, when food inflation peaked at 10.87%, the highest since November 2013. Food inflation in March fell to 2.69% aided by a contraction in the prices of vegetables (-7.04%), eggs (-3.16%) and pulses (-2.73%). The repo rate reduction has already begun translating into lower interest on bank loans. In normal times, this would translate into greater capital flows into businesses, thereby raising jobs, incomes and consumption. But it comes at a time of dampening investor confidence: U.S.-led tariff uncertainty is forcing exporters to scramble for newer markets, amid a concern over near-term demand contraction, as America has been India's largest buyer of merchandise goods since fiscal year 2022. Easing inflation could raise domestic consumption and India's sluggish industrial production.

What must concern policymakers more should be the steep fall in food prices, as this means lower farmer incomes, directly impacting rural consumption demand. Last December, the government procured eight tonnes of tomatoes in Kurnool, Andhra Pradesh, as prices in the local market plummeted to ₹1 a kilogram. In February this year, in Maharashtra and Madhya Pradesh, an 80% fall in tomato prices forced farmers to dump produce or use them as cattle feed. A 2022 study by the Ministry of Food Processing pegged India's post-harvest loss at a whopping ₹1.52 trillion annually, ranging between 6% to 15% of produce depending on the crop and region. This is due to widespread shortages in cold storage facilities and temperature-controlled transport for perishables, and market inaccessibility for farmers. A significant 86% of Indian farmers make a living from less than two hectares of land. A 2021-22 NABARD survey pegged average monthly agricultural household income at ₹13,661. A more comprehensive NSSO 2019 survey estimates this to be ₹10,218. These figures are lower than those in other emerging economies such as China, Mexico and Brazil for the corresponding years. While rural consumption has been rising since the COVID-19 pandemic years, monthly per capita consumption expenditure for rural areas in fiscal 2024 was ₹4,122, while in urban areas, it was ₹6,996, indicating the significant gap that must be viewed as an opportunity, at a time when export growth is expected to be sluggish.

## Good News, and Bad: On the Economy

अच्छी और बुरी खबरें: अर्थव्यवस्था पर

### Retail Inflation Declines

थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट

- India's retail **inflation** in March dropped to a near six-year low of 3.34%.

मार्च में भारत की थोक महंगाई दर 3.34% पर आ गई, जो पिछले छह वर्षों का न्यूनतम स्तर है।

- This makes it likely that the **Reserve Bank of India (RBI)** will further reduce its **lending rate** in the upcoming **Monetary Policy Committee** meetings.

इससे संभावना बढ़ गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी आगामी मौद्रिक नीति समिति की बैठकों में उधार दरों में और कटौती करेगा।

### Repo Rate Cut by RBI

RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती

- The **repo rate** has already been cut **twice**—by **25 basis points (bps)** each in **February and April**, reducing it from **6.5% to 6%**.

रेपो रेट में फरवरी और अप्रैल में दो बार 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है, जिससे यह 6.5% से घटकर 6% हो गया है।

- These cuts show RBI's **emphasis on growth**, especially as **global trade uncertainties** persist.

ये कटौती वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं के बीच RBI की विकास पर जोर को दर्शाती हैं।

### Food Inflation Falls Sharply

खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट

- Vegetable prices** have fallen drastically over the past four months from the **October 2024 peak** when **food inflation** hit **10.87%**, the highest since **November 2013**.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)

Contact Number : 9971932488

Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



अक्टूबर 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति 10.87% पर पहुंच गई थी, जो नवंबर 2013 के बाद सबसे अधिक थी, लेकिन उसके बाद चार महीनों में सब्जियों के दामों में भारी गिरावट आई है।

- In **March**, food inflation declined to **2.69%**, with prices of **vegetables (-7.04%)**, **eggs (-3.16%)**, and **pulses (-2.73%)** contracting.  
मार्च में खाद्य मुद्रास्फीति 2.69% तक गिर गई, जिसमें सब्जियों (-7.04%), अंडों (-3.16%) और दालों (-2.73%) की कीमतों में गिरावट शामिल थी।

## Impact of Repo Rate Cuts

### रेपो रेट कटौती का प्रभाव

- The repo rate reduction has already led to **lower interest rates on bank loans**.  
रेपो रेट में कटौती से बैंक ऋणों पर ब्याज दरों में गिरावट आई है।
- In normal circumstances, this boosts **business investment, job creation, incomes, and consumption**.  
सामान्य परिस्थितियों में, यह व्यापारिक निवेश, रोजगार, आय और उपभोग को बढ़ावा देता है।

## Concerns Over Investor Confidence

### निवेशक विश्वास को लेकर चिंता

- **Currently, investor confidence is weakening due to U.S.-led tariff uncertainty**.  
वर्तमान में, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर अनिश्चितता के कारण निवेशक विश्वास कमजोर हो रहा है।
- Exporters are **searching for new markets**, as the **U.S. has been India's largest merchandise buyer since FY 2022**.  
निर्यातक नए बाजारों की तलाश में हैं क्योंकि वित्त वर्ष 2022 से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा माल खरीदार रहा है।
- **Easing inflation** may help boost **domestic consumption** and revive **industrial production**.  
मुद्रास्फीति में नरमी से घरेलू उपभोग और उद्योग उत्पादन में सुधार की संभावना है।



## Falling Food Prices Hurt Farmers

### गिरते खाद्य दामों से किसानों को नुकसान

- Steep fall in food prices translates to **lower farmer incomes**, adversely affecting **rural consumption demand**.  
खाद्य दामों में तेज गिरावट से किसानों की आय घटती है, जिससे ग्रामीण खपत मांग पर नकारात्मक असर पड़ता है।
- In **December**, the government procured **eight lakh tonnes of tomatoes in Kurnool, Andhra Pradesh**, as prices fell to just **₹1 per kg**.  
दिसंबर में सरकार ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में ₹1 प्रति किलो के भाव पर 8 टन टमाटर खरीदे।
- In **February**, farmers in **Maharashtra and Madhya Pradesh** faced an **80% price crash**, forcing them to **dump produce or feed cattle**.  
फरवरी में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों को 80% तक कीमत में गिरावट झेलनी पड़ी, जिससे उन्हें उत्पाद फेंकना पड़ा या मवेशियों को खिलाना पड़ा।

## Post-Harvest Loss and Infrastructure Gaps

### कटाई के बाद नुकसान और अवसंरचना की कमी

- A **2022 study** by the **Ministry of Food Processing** estimated **annual post-harvest loss at ₹1.52 trillion**, varying from **6% to 15%** depending on crop and region.  
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक कटाई के बाद का नुकसान ₹1.52 ट्रिलियन है, जो फसल और क्षेत्र के अनुसार 6% से 15% तक होता है।
- These losses are due to lack of **cold storage, temperature-controlled transport, and market inaccessibility**.  
ये नुकसान ठंडे भंडारण, तापमान नियंत्रित परिवहन, और बाज़ार तक पहुंच की कमी के कारण होते हैं।

## Small Landholdings and Low Income

### छोटे भूखंड और कम आय

- **86%** of Indian farmers operate on **less than two hectares** of land.  
भारत के 86% किसान दो हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करते हैं।



- According to **NABARD's 2021–22 survey**, average monthly agricultural household income was ₹13,661, while **NSSO's 2019 survey** estimated it at ₹10,218.  
नाबाई की 2021–22 की रिपोर्ट में औसत कृषि परिवार की मासिक आय ₹13,661 बताई गई है, जबकि एनएसएसओ की 2019 की रिपोर्ट में यह ₹10,218 थी।
- These incomes are **lower than** those in countries like **China, Mexico, and Brazil**.  
यह आय चीन, मैक्सिको और ब्राज़ील जैसे देशों की तुलना में कम है।

## Gap in Rural and Urban Consumption

### ग्रामीण और शहरी उपभोग में अंतर

- Though **rural consumption** has been growing since the **COVID-19 pandemic**, in **FY 2024, monthly per capita consumption expenditure was ₹4,122 in rural areas vs. ₹6,996 in urban areas**.  
कोविड-19 महामारी के बाद से ग्रामीण उपभोग में वृद्धि हो रही है, लेकिन वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खपत व्यय ₹4,122 और शहरी क्षेत्रों में ₹6,996 रहा।
- This **gap** represents an **opportunity** to drive growth amid expected **export slowdown**.  
यह अंतर एक अवसर है, विशेषकर जब निर्यात में मंदी की आशंका है।

## Inflation

### महंगाई

Inflation refers to a sustained increase in the general price level of goods and services in an economy over a period of time.

महंगाई का तात्पर्य एक निश्चित अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि से है।

This leads to a decrease in the purchasing power of money, meaning consumers can buy less with the same amount of money.

यह मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी लाता है, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ता एक ही राशि में कम वस्तुएं खरीद सकते हैं।

## Types of Inflation

### महंगाई के प्रकार

#### Demand-Pull Inflation

#### मांग-आधारित महंगाई



Occurs when the aggregate demand in an economy outpaces aggregate supply, leading to higher prices.

जब किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग, कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो यह कीमतों में वृद्धि का कारण बनती है।

**Causes:**

**कारण:**

- **Rising Population:** An increasing population elevates the demand for goods and services.  
**बढ़ती जनसंख्या:** जनसंख्या में वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाती है।
- **Increase in Incomes:** Higher disposable incomes boost consumer spending.  
**आय में वृद्धि:** अधिक खर्च योग्य आय उपभोक्ता खर्च को बढ़ाती है।
- **Government Expenditure:** Enhanced public spending can stimulate demand.  
**सरकारी व्यय:** सार्वजनिक खर्च में वृद्धि मांग को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **Low-Interest Rates:** Encourage borrowing and investing, increasing demand.  
**कम ब्याज दरें:** उधारी और निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे मांग बढ़ती है।
- **Export Demand:** Higher demand for exports reduces domestic supply, raising prices.  
**निर्यात की मांग:** निर्यात की अधिक मांग घरेलू आपूर्ति को कम कर देती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं।

**Example:** During economic booms, increased consumer confidence and spending can lead to demand-pull inflation.

**उदाहरण:** आर्थिक उछाल के समय, उपभोक्ताओं के विश्वास और खर्च में वृद्धि मांग-आधारित महंगाई को जन्म दे सकती है।

**Cost-Push Inflation**

**लागत-आधारित महंगाई**

Arises when the costs of production increase, leading producers to raise prices to maintain profit margins.

जब उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, तो निर्माता लाभ बनाए रखने के लिए कीमतें बढ़ा देते हैं।

**Causes:**

**कारण:**



- **Rise in Input Prices:** Increased costs of raw materials like oil and metals.  
इनपुट कीमतों में वृद्धि: तेल और धातुओं जैसे कच्चे माल की लागत में वृद्धि।
- **Increase in Wages:** Higher labor costs can lead to increased prices.  
वेतन में वृद्धि: मजदूरी की लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ सकती हैं।
- **Hoarding and Black Marketing:** Artificial scarcity can drive prices up.  
माल की जमाखोरी और काला बाज़ारी: कृत्रिम कमी कीमतों को बढ़ा सकती है।
- **Failure of Monsoons:** Poor agricultural output can reduce supply, increasing prices.  
मॉनसून की विफलता: कृषि उत्पादन में गिरावट आपूर्ति को कम कर देती है जिससे महंगाई बढ़ती है।

**Example:** A surge in global oil prices can increase transportation and production costs, leading to cost-push inflation.

**उदाहरण:** वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि परिवहन और उत्पादन लागत को बढ़ा देती है, जिससे लागत-आधारित महंगाई होती है।

## Inflation-Growth Trade-Off

### मुद्रास्फीति-विकास का अदला-बदली

The **inflation-growth trade-off** refers to an economic situation where attempts to **stimulate economic growth** can result in **higher inflation**.

मुद्रास्फीति-विकास का **अदला-बदली** उस आर्थिक स्थिति को दर्शाता है जहाँ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रयासों से अधिक मुद्रास्फीति हो सकती है।

This occurs when **aggregate demand rises faster than aggregate supply**, which increases the **Gross Domestic Product (GDP)** and also raises **general price levels**.

यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब **सामूहिक मांग, सामूहिक आपूर्ति से तेज़ी से बढ़ती है**, जिससे **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** में वृद्धि होती है और साथ ही सामान्य मूल्य स्तर भी बढ़ता है।

For example, **during periods of economic expansion**, increased **consumer spending** drives up **demand** for goods and services.

उदाहरण के लिए, **आर्थिक विस्तार** के दौरान, **उपभोक्ता खर्च** में वृद्धि से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है।



If the **supply** does not match the **increased demand**, **prices rise**, causing **inflation**.

यदि आपूर्ति, बढ़ी हुई मांग के अनुरूप नहीं होती है, तो कीमतें बढ़ती हैं, जिससे मुद्रास्फीति होती है।

This reflects the **delicate balance** policymakers must maintain between **stimulating growth** and **controlling inflation**.

यह नीति निर्माताओं को विकास को प्रोत्साहित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है।

**The Phillips Curve:**

**फिलिप्स वक्र**

The **Phillips Curve**, introduced by economist A.W. Phillips in **1958**, shows an **inverse relationship** between **inflation** and **unemployment**.

फिलिप्स वक्र, जिसे अर्थशास्त्री ए. डब्ल्यू. फिलिप्स ने 1958 में प्रस्तुत किया था, **मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच उलटा संबंध दर्शाता है।**

According to this concept, when **unemployment is low**, **inflation tends to be high**, and **vice versa**.

इस सिद्धांत के अनुसार, जब **बेरोजगारी कम होती है**, तो **मुद्रास्फीति अधिक होती है** और इसके **विपरीत भी होता है।**

This implies that **policies aiming to reduce unemployment** may lead to **higher inflation**, while **inflation control measures** may result in **higher unemployment**.

इसका अर्थ है कि **बेरोजगारी को कम करने वाली नीतियाँ**, अधिक **मुद्रास्फीति** ला सकती हैं, जबकि **मुद्रास्फीति नियंत्रण उपाय**, बेरोजगारी बढ़ा सकते हैं।

This **trade-off** is primarily observed in the **short run**.

यह **व्यापारिक संबंध** मुख्यतः **स्वल्पकालिक (Short Run)** अवधि में देखा जाता है।

In the **long run**, this relationship may not hold due to the adjustment of **inflation expectations** over time.

**दीर्घकालिक (Long Run)** अवधि में, यह संबंध टिकाऊ नहीं रहता क्योंकि समय के साथ **मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ** समायोजित हो जाती हैं।



## Repo Rate (Repurchase Agreement Rate)

### रेपो दर (पुनः खरीद समझौता दर)

- The **Repo Rate** is the interest rate at which the **Reserve Bank of India (RBI)** lends short-term funds to commercial banks against the collateral of **government securities**.
- **रेपो दर** वह ब्याज दर है जिस पर **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** वाणिज्यिक बैंकों को **सरकारी प्रतिभूतियों** के बदले **अल्पकालिक ऋण** प्रदान करता है।
- It serves as a tool for the **RBI to manage liquidity and control inflation** in the economy.
- यह अर्थव्यवस्था में **तरलता प्रबंधन और मुद्रास्फीति नियंत्रण** के लिए **RBI** का एक उपकरण है।
- **Mechanism:** Banks sell **government securities** to the RBI with an agreement to **repurchase them** at a predetermined **date and price**.
- **प्रक्रिया:** बैंक **सरकारी प्रतिभूतियाँ** RBI को बेचते हैं और एक निश्चित तिथि और मूल्य पर उन्हें **पुनः खरीदने** का समझौता करते हैं।
- **Current Rate (as of April 9, 2025):** The RBI reduced the **repo rate** by **25 basis points** to **6.00%**, marking the **second consecutive cut in 2025**.
- **वर्तमान दर (9 अप्रैल 2025 के अनुसार):** RBI ने **रेपो दर** को **25 आधार अंक घटाकर 6.00%** कर दिया, जो कि **2025 में लगातार दूसरी कटौती** है।

## Reverse Repo Rate

### रिवर्स रेपो दर

- The **Reverse Repo Rate** is the interest rate at which the **Reserve Bank of India (RBI)** **borrow funds from commercial banks** by offering them government securities as collateral.
- **रिवर्स रेपो दर** वह ब्याज दर है जिस पर **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** वाणिज्यिक बैंकों से **सरकारी प्रतिभूतियों** को गिरवी रखकर **धन उधार** लेता है।
- It serves as a tool for the RBI to **absorb excess liquidity** from the banking system, thereby helping to control inflation and stabilize the economy.
- यह **RBI** के लिए बैंकिंग प्रणाली से **अतिरिक्त तरलता को अवशोषित** करने का एक उपकरण है, जिससे **मुद्रास्फीति** को नियंत्रित करने और **अर्थव्यवस्था** को स्थिर करने में मदद मिलती है।
- By adjusting the reverse repo rate, the RBI can influence the amount of funds that banks are willing to park with it, thus impacting the overall money supply.



• रिवर्स रेपो दर को समायोजित करके, RBI उस राशि को प्रभावित कर सकता है जिसे बैंक उसके पास जमा करने के लिए तैयार हैं, जिससे कुल धन आपूर्ति पर प्रभाव पड़ता है।

• This process helps the RBI to **manage short-term liquidity** and maintain stability in the financial system.

• यह प्रक्रिया RBI को **अल्पकालिक तरलता का प्रबंधन** करने और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है।

**Current Rate (as of April 9, 2025)**

**वर्तमान दर (9 अप्रैल 2025 तक)**

• The **Reverse Repo Rate** remains unchanged at **3.35%**, as per the latest monetary policy announcement.

• नवीनतम मौद्रिक नीति घोषणा के अनुसार, **रिवर्स रेपो दर 3.35%** पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

## Bank Rate

### बैंक दर

• **Bank Rate** is the interest rate at which the **Reserve Bank of India (RBI)** lends funds to **commercial banks without any repurchase agreement**.

• **बैंक दर** वह ब्याज दर है जिस पर **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** बिना किसी पुनः क्रय अनुबंध (repurchase agreement) के **वाणिज्यिक बैंकों** को धन उधार देता है।

• It serves as a **monetary policy tool** to regulate **liquidity** and control **inflation** in the economy.

• यह अर्थव्यवस्था में **तरलता (liquidity)** को नियंत्रित करने और **मुद्रास्फीति (inflation)** को नियंत्रित करने के लिए **मौद्रिक नीति उपकरण** के रूप में कार्य करता है।

### Mechanism of Bank Rate

#### बैंक दर का कार्य करने का तंत्र

• When **commercial banks** face a **shortage of funds**, they can borrow from the **RBI at the Bank Rate**.

• जब **वाणिज्यिक बैंकों** को धन की कमी होती है, तो वे **बैंक दर पर RBI से ऋण** ले सकते हैं।



- Unlike the **Repo Rate**, there is **no repurchase agreement** involved; the borrowing is not backed by the sale of **government securities**.
- **रेपो दर** के विपरीत, इसमें कोई पुनः खरीद समझौता (repurchase agreement) नहीं होता; यह उधारी सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा समर्थित नहीं होती।
- The **Bank Rate** influences the **lending rates** of commercial banks; a **higher Bank Rate** can lead to **higher interest rates for borrowers**.
- **बैंक दर** वाणिज्यिक बैंकों की ऋण दरों को प्रभावित करती है; उच्च बैंक दर से उधारकर्ताओं के लिए उच्च ब्याज दरें हो सकती हैं।

### Current Bank Rate

#### वर्तमान बैंक दर

- As of **April 9, 2025**, the **Bank Rate** stands at **6.25%**.
- **9 अप्रैल 2025 तक, बैंक दर 6.25% है।**
- This rate is **determined by the RBI** and is subject to **change based on economic conditions**.
- यह दर **RBI द्वारा निर्धारित** की जाती है और **आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदल** सकती है।



## National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)

### राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

- NABARD was established on **12 July 1982** under the **NABARD Act, 1981**, taking over the functions of the erstwhile **Agricultural Credit Department (ACD)** and **Rural Planning and Credit Cell (RPCC)** of the **Reserve Bank of India (RBI)**, and the **Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC)**.

नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड अधिनियम, 1981 के अंतर्गत हुई थी। इसने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के कृषि ऋण विभाग (ACD) और ग्रामीण योजना एवं ऋण प्रकोष्ठ (RPCC) तथा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम (ARDC) के कार्यों को अपने अधीन ले लिया।

- Ownership:** It is **fully owned by the Government of India**.  
स्वामित्व: यह पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है।
- Administrative Control:** Operates under the **Department of Financial Services, Ministry of Finance**.  
प्रशासनिक नियंत्रण: यह वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
- Headquarters:** Located in **Mumbai, Maharashtra**.  
मुख्यालय: इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है।
- Regional Presence:** As of **2023**, NABARD has **31 Regional Offices** across India, facilitating its operations at the state level.  
क्षेत्रीय उपस्थिति: 2023 तक, नाबार्ड के भारत में 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो राज्य स्तर पर संचालन को सुगम बनाते हैं।

#### Core Functions

#### मुख्य कार्य

#### 1. Financial Functions (Refinancing)

#### 1. वित्तीय कार्य (पुनर्वित्त)

- Short-Term Refinance:** Provides **short-term credit** to **Cooperative Banks and Regional Rural Banks (RRBs)** for **seasonal agricultural operations**, ensuring **timely availability of funds** to farmers.

**अल्पकालिक पुनर्वित्त:** यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को



मौसमी कृषि कार्यों के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, जिससे किसानों को समय पर धनराशि उपलब्ध हो सके।

- **Long-Term Refinance:** Offers long-term credit to financial institutions for investment in agriculture and rural development activities, including infrastructure projects.

दीर्घकालिक पुनर्वित्त: यह वित्तीय संस्थानों को कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों, जिसमें बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शामिल हैं, में निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है।

- **Refinance Support:** During 2023-24, NABARD extended refinance of ₹10,099.55 crore to banks for Self-Help Group (SHG) lending. The cumulative disbursement stood at ₹1,17,895.32 crore as of 31 March 2024.

पुनर्वित्त सहायता: 2023-24 में, नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह (SHG) ऋण के लिए बैंकों को ₹10,099.55 करोड़ का पुनर्वित्त प्रदान किया। 31 मार्च 2024 तक कुल वितरण ₹1,17,895.32 करोड़ रहा।

## 2. Supervisory Functions

### 2. पर्यवेक्षणीय कार्य

- **Regulatory Oversight:** NABARD supervises State Cooperative Banks (StCBs), District Central Cooperative Banks (DCCBs), and RRBs, ensuring their financial health and regulatory compliance.

नियामकीय निगरानी: नाबार्ड राज्य सहकारी बैंक (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) और RRBs का पर्यवेक्षण करता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

- **Institutional Development:** Engages in capacity building of rural financial institutions through training, monitoring, and evaluation, aiming to strengthen the rural credit delivery system.

संस्थागत विकास: यह प्रशिक्षण, निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से ग्रामीण वित्तीय संस्थानों की क्षमता निर्माण में संलग्न होता है, जिससे ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके।

## 3. Developmental Functions

### 3. विकासात्मक कार्य

- **SHG-Bank Linkage Programme (SHG-BLP):** Initiated in 1992, this programme connects Self-Help Groups (SHGs), primarily women-based, with formal banking institutions for credit access. As of November 2023,



SHGs have accessed loans worth ₹7.68 lakh crore since FY 2013-14.

SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP): इसे 1992 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम स्वयं सहायता समूहों (SHGs), विशेष रूप से महिला समूहों, को औपचारिक बैंकिंग संस्थाओं से जोड़ता है ताकि उन्हें ऋण की पहुंच मिल सके। नवंबर 2023 तक, वित्त वर्ष 2013-14 से SHGs ने ₹7.68 लाख करोड़ के ऋण प्राप्त किए हैं।

- **Natural Resource Management:** Implements programmes focusing on watershed development, tribal development, and farm innovation to promote sustainable agriculture and improve rural livelihoods.  
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन: यह जलग्रहण क्षेत्र विकास, जनजातीय विकास, और खेती में नवाचार पर केंद्रित कार्यक्रमों को लागू करता है ताकि सतत कृषि और ग्रामीण आजीविका में सुधार हो सके।
- **Women SHG Development Fund:** Supports women SHGs in 150 districts, especially in backward and left-wing extremism-affected areas, to enhance economic empowerment.  
महिला SHG विकास निधि: यह 150 जिलों में विशेष रूप से पिछड़े और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में महिला SHGs को समर्थन देता है ताकि आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके।

### Significance महत्त्व

- **Rural Development Catalyst:** NABARD plays a pivotal role in rural development by facilitating credit flow, supervising institutions, and implementing development programmes.  
ग्रामीण विकास में उत्प्रेरक: नाबार्ड ऋण प्रवाह को सुगम बनाने, संस्थाओं की निगरानी करने, और विकास कार्यक्रमों को लागू करने के माध्यम से ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **Financial Inclusion:** Through initiatives like SHG-BLP, NABARD has significantly contributed to financial inclusion, especially for women and marginalized groups.  
वित्तीय समावेशन: SHG-BLP जैसी पहलों के माध्यम से नाबार्ड ने वित्तीय समावेशन, विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए के वर्गों के लिए, में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- **Infrastructure Development:** By providing refinance for infrastructure projects, NABARD supports the creation of rural infrastructure, essential



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



for economic growth.

बुनियादी ढांचा विकास: नाबार्ड बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त प्रदान कर ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग करता है, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

PATRIOTIC IAS



## Shaping a response to the U.S.'s reciprocal tariffs

GS Paper III: External Sector

President Donald Trump's announcement of reciprocal tariffs has come as a shock, though it is not a surprise. The new tariffs consist of two parts: the existing commodity-wise import tariff and an additional reciprocal country-wise common tariff for all goods. The resultant tariffs are country-wise as well as commodity-wise. The reciprocal tariffs announced are now on hold and limited to 10% for 90 days, except for China.

### Calculation of reciprocal tariffs

The calculation of the reciprocal country-wise tariff is based on the following formula:

U.S. discounted tariff rate =  $(-1) * (1/2) * \text{exports from U.S.} - \text{imports to U.S.} / \text{imports to U.S.}$

The parametric assumptions are such that no individual tariff or import demand elasticities appear in this formula. The formula in substance is not the way to determine the tariff rate. In addition, the table presented by Mr. Trump has a column 'charged to the US'. This is misleading. This is not the tariff rate imposed by various countries. It is simply double the discounted reciprocal tariff rate. India's reciprocal tariff is worked out below using magnitudes of exports and imports in billion dollars for 2024.

India's discounted reciprocal tariff rate =  $(-1) * (1/2) * (41.8 - 87.4) / 87.4 = 26.1\% = 26\%$

This penal tariff rate is to be added to the tariff that is presently applicable for various commodities. The 26% rate would be a common additional element for all commodities. For countries that are not listed in the reciprocal tariff

### Table

India's total exports of goods and exports of goods to the United States as % of GDP (current prices)

	Export of goods	Exports to the U.S.
FY22	13.4	2.4
FY23	13.5	2.3
FY24	12.1	2.1

Source (basic data): RBI and MoSPI



**C. Rangarajan**

is Former Chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister and Former Governor, Reserve Bank of India



**D.K. Srivastava**

is Honorary Professor, Madras School of Economics, and Member, Advisory Council to the Sixteenth Finance Commission

New Delhi's approach must be multi-pronged, keeping in mind that increasing imports from the U.S. will reduce the tariff rate on India

list, a floor rate of 10% has been announced. This will be added to their individual commodity-wise tariff rates.

Some commodities have been presently exempted from the levy of the additional discounted reciprocal tariff. These include steel/aluminum articles, autos/auto parts, copper, pharmaceuticals, semiconductors, lumber articles, bullion and energy and certain other minerals that are not available in the U.S.

### Calibrating India's response

We need to explore now what our reactions should be. As indicated in the Table, India's total exports of goods and its exports to the U.S. as a percentage of GDP are moderate.

India's exports to the U.S. are not only quite low but have also been falling in recent years. The impact of the additional 26% tariff would be small but different for different exported goods. India is certainly not a country that is heavily dependent on exports.

An analysis of major exports to the U.S. in terms of their share in total exports to the U.S. indicates that the main Indian exports that would be affected by the imposition of the additional 26% tariff would be electrical machinery, gems and jewellery, machinery and mechanical appliances, mineral fuels and articles of iron and steel. Pharmaceuticals are not yet subject to the additional tariff. Mineral fuels are refined oil products that are re-exported to the U.S. after processing in India. The impact on gems and jewellery is likely to be minimal as its demand is relatively inelastic. The main items that would therefore be affected include electrical machinery, machinery and mechanical appliances and made-up textiles. However, India's competitors in these three commodity groups such as China, Vietnam, Cambodia and Bangladesh have also been subjected to reciprocal tariffs which are higher than that of India. South Korea is also a competitor in electronic goods but has been subjected to a 25% reciprocal tariff, which is very close to that of India.

Some countries such as China have started levying reciprocal tariffs. However, this has elicited an aggressive response from the U.S., resulting in a revised overall tariff rate for China at 145%, which has been raised up to 245% for certain commodities. From India's angle this is not a good approach.

India's approach must be multi-pronged. An analysis of the major imports of India from the U.S. indicates that most of these are 'essentials'. Any levy of additional tariffs on them will make them more expensive. If India increases its imports from the U.S. wherever possible and advantageous, the penal reciprocal tariff rate on India will come down. For example, in the formula described above, if we increase the magnitude of India's imports from the U.S. by \$25 billion, say, by substituting the import of petroleum from other sources to the U.S., India's reciprocal tariff rate will come down to 11.8%, just above the floor rate of 10%, making India far more competitive. This does not affect India's overall current account deficit. This results only in a change in the composition of India's oil imports basket. This may be even desirable.

India should speed up consultations with the U.S. trade authorities to work out a comprehensive trade arrangement taking into account the concerns of both countries. In the meanwhile, we should also watch out for 'dumping' in India by other countries such as China which are seriously affected.

### WTO must take the lead

It is clear that the U.S. tariff initiative is only its opening gambit. Global trade and tariff structures would remain subject to considerable uncertainties in the near to medium term, which are bad for world trade and growth. As we move forward, we need to create a world trading system marked by low tariffs. The World Trade Organization should move strongly in this direction. Regional groupings are only a 'second best' solution which, however, must be pursued.

The views expressed are personal

## Shaping a Response to the U.S.'s Reciprocal Tariffs

### अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ़ के प्रति प्रतिक्रिया तैयार करना

President Donald Trump's announcement of reciprocal tariffs came as a shock, though it was not unexpected.

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारस्परिक टैरिफ़ की घोषणा चौंकाने वाली रही, हालांकि यह अप्रत्याशित नहीं थी।

- The new tariffs include two components: the existing **commodity-wise import tariff** and an additional **country-wise reciprocal tariff** for all goods.

नए टैरिफ़ में दो भाग शामिल हैं: मौजूदा उत्पाद-वार आयात शुल्क और सभी वस्तुओं पर एक अतिरिक्त देश-वार पारस्परिक शुल्क।



- As a result, the final tariffs become both **country-wise** and **commodity-wise**.  
इस प्रकार, अंतिम टैरिफ़ देश-वार और उत्पाद-वार, दोनों हो जाते हैं।
- The announced **reciprocal tariffs** are currently on **hold** and capped at **10% for 90 days**, except in the case of **China**.  
घोषित पारस्परिक टैरिफ़ फिलहाल स्थगित हैं और 90 दिनों के लिए 10% तक सीमित हैं, चीन को छोड़कर।

## Calculation of Reciprocal Tariffs

### पारस्परिक टैरिफ़ की गणना

- The **reciprocal country-wise tariff** is calculated using the following formula:  
देश-वार पारस्परिक शुल्क निम्नलिखित सूत्र से निकाला जाता है:
- **U.S. discounted tariff rate** =  $(-1) \times (1/2) \times (\text{exports from U.S.} - \text{imports to U.S.}) / \text{imports to U.S.}$   
अमेरिका की रियायती टैरिफ़ दर =  $(-1) \times (1/2) \times (\text{अमेरिका से निर्यात} - \text{अमेरिका को आयात}) / \text{अमेरिका को आयात}$
- This formula does not include **individual tariff** or **import demand elasticities**.  
इस सूत्र में व्यक्तिगत टैरिफ़ या आयात मांग लोच शामिल नहीं हैं।
- The table used by **Mr. Trump** includes a column '**charged to the U.S.**', which is misleading.  
श्री ट्रंप द्वारा प्रस्तुत तालिका में '**charged to the U.S.**' नाम का कॉलम है, जो भ्रमित करने वाला है।
- This column does not show actual tariff rates imposed by countries, but is just **double the discounted reciprocal tariff rate**.  
यह कॉलम वास्तव में देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ़ नहीं दिखाता, बल्कि रियायती पारस्परिक टैरिफ़ दर का दुगुना मात्र है।

## India's Reciprocal Tariff Calculation

### भारत के पारस्परिक टैरिफ़ की गणना

- For **2024**, using export and import values in **billion dollars**, India's reciprocal tariff is calculated as:  
2024 के लिए, अरब डॉलर में निर्यात और आयात के आंकड़ों का उपयोग कर भारत का टैरिफ़ इस प्रकार है:
- **India's discounted reciprocal tariff** =  $(-1) \times (1/2) \times (41.8 - 87.4) / 87.4 = 26.1\% \approx 26\%$   
भारत की रियायती पारस्परिक टैरिफ़ दर =  $(-1) \times (1/2) \times (41.8 - 87.4) / 87.4 = 26.1\% \approx 26\%$
- This **penal tariff rate** of **26%** is to be added to the existing **commodity-specific tariff**.  
यह 26% का दंडात्मक शुल्क वर्तमान उत्पाद-विशिष्ट शुल्क में जोड़ा जाएगा।



- The **26% rate** will be applied **uniformly** to all goods from India.  
यह **26% दर** भारत से आने वाले सभी सामानों पर **समान रूप से** लागू होगी।
- For countries not included in the **reciprocal tariff list**, a **floor rate of 10%** has been declared.  
जो देश **पारस्परिक टैरिफ सूची** में शामिल नहीं हैं, उनके लिए **10% की न्यूनतम दर** घोषित की गई है।
- This **10% rate** will be added to their **individual commodity-wise tariff rates**.  
यह **10% दर** उनके व्यक्तिगत उत्पाद-वार शुल्क में जोड़ी जाएगी।

## Commodities Exempted from Additional Tariff

### अतिरिक्त शुल्क से मुक्त वस्तुएँ

- Some commodities have been **exempted** from the **additional discounted reciprocal tariff**.  
कुछ वस्तुओं को **अतिरिक्त रियायती पारस्परिक शुल्क से छूट दी गई है**।
- These include **steel/aluminum articles, autos/auto parts, copper, pharmaceuticals, semiconductors, lumber articles, bullion, energy, and certain minerals** not available in the U.S.  
इनमें **इस्पात/एल्यूमीनियम उत्पाद, ऑटो/ऑटो पार्ट्स, तांबा, दवाइयाँ, सेमीकंडक्टर्स, लकड़ी उत्पाद, सोना-चाँदी, ऊर्जा, और कुछ अन्य खनिज** शामिल हैं जो अमेरिका में उपलब्ध नहीं हैं।

## Calibrating India's Response

### भारत की प्रतिक्रिया को संतुलित करना

- India needs to consider how it should react to the U.S.'s reciprocal tariff move.  
भारत को यह विचार करना होगा कि उसे अमेरिका के **पारस्परिक टैरिफ कदम** पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
- As per the data, **India's total exports and exports to the U.S. as a percentage of GDP are moderate**.  
आंकड़ों के अनुसार, **भारत का कुल निर्यात और GDP के प्रतिशत के रूप में अमेरिका को निर्यात मध्यम स्तर पर हैं**।
- India's exports to the U.S. are **not only low** but have also been **declining** in recent years.  
भारत का अमेरिका को निर्यात **केवल कम नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों में घटता भी गया है**।
- The impact of the **additional 26% tariff** would be **small overall**, but **varies by product**.  
**अतिरिक्त 26% टैरिफ का प्रभाव कुल मिलाकर सीमित होगा, लेकिन यह उत्पादों के अनुसार अलग-अलग होगा**।
- India is **not heavily dependent** on exports.  
भारत **निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर नहीं है**।



## Impact on Specific Exports

### विशिष्ट निर्यातों पर प्रभाव

Major Indian exports likely to be affected include:

प्रभावित होने वाले प्रमुख भारतीय निर्यातों में शामिल हैं:

- **Electrical machinery**
- इलेक्ट्रिकल मशीनरी
- **Gems and jewellery**
- रत्न और आभूषण
- **Machinery and mechanical appliances**
- मशीनरी और यांत्रिक उपकरण
- **Mineral fuels** (refined oil products)
- खनिज ईंधन (शोधित तेल उत्पाद)
- **Articles of iron and steel**
- लौह और इस्पात के उत्पाद
- **Pharmaceuticals** are not yet subject to the **additional tariff**.  
दवाइयाँ अभी तक अतिरिक्त शुल्क के दायरे में नहीं आई हैं।
- **Mineral fuels** are mostly **re-exported** after processing in India.  
खनिज ईंधन का अधिकांश हिस्सा भारत में प्रसंस्करण के बाद फिर से निर्यात किया जाता है।
- Impact on **gems and jewellery** is likely to be **minimal** due to **inelastic demand**.  
रत्न और आभूषण पर प्रभाव संभवतः कम रहेगा क्योंकि इनकी मांग लोचहीन होती है।
- The main affected items would be **electrical machinery, mechanical appliances, and made-up textiles**.  
मुख्य प्रभावित वस्तुएँ होंगी – इलेक्ट्रिकल मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, और बने हुए वस्त्र।
- India's competitors like **China, Vietnam, Cambodia, and Bangladesh** have also been subjected to **higher reciprocal tariffs**.  
भारत के प्रतिस्पर्धी जैसे चीन, वियतनाम, कंबोडिया, और बांग्लादेश पर भी भारत से अधिक पारस्परिक टैरिफ़ लगाए गए हैं।
- **South Korea**, a competitor in **electronics**, faces a **25% reciprocal tariff**, similar to India.  
दक्षिण कोरिया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रतिस्पर्धी है, पर 25% पारस्परिक शुल्क लगाया गया है, जो भारत के समान है।

## Aggressive Retaliation by China and Lessons for India

### चीन की आक्रामक प्रतिक्रिया और भारत के लिए सीख

- Some countries like **China** have imposed their own **reciprocal tariffs**.  
कुछ देशों जैसे चीन ने अपने पारस्परिक टैरिफ़ लागू किए हैं।



- This has triggered an **aggressive U.S. response**, increasing China's **overall tariff rate** to **145%**, and up to **245%** for certain items.  
इससे अमेरिका की आक्रामक प्रतिक्रिया हुई, जिससे चीन पर **कुल टैरिफ दर 145%** और कुछ वस्तुओं पर **245%** तक पहुंच गई।
- From India's point of view, this **approach is not advisable**.  
भारत के दृष्टिकोण से, यह **रुख उपयुक्त नहीं है।**

## A Multi-Pronged Strategy for India

### भारत के लिए बहुपक्षीय रणनीति

- India's major **imports from the U.S.** are largely **essential items**.  
भारत के अमेरिका से प्रमुख आयात अधिकतर आवश्यक वस्तुएँ हैं।
- Levying additional tariffs on them will make these goods **more expensive**.  
इन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से ये वस्तुएँ और महंगी हो जाएँगी।
- If India **increases imports from the U.S.**, especially where **advantageous**, it will help **reduce the reciprocal tariff rate** on India.  
यदि भारत अमेरिका से आयात बढ़ाता है, खासकर जहाँ लाभकारी हो, तो यह भारत पर पारस्परिक शुल्क दर को कम कर सकता है।
- Example: If India increases its **U.S. imports by \$25 billion**, e.g., by **substituting petroleum imports**, its **reciprocal tariff rate** drops to **11.8%**, close to the **10% floor rate**.  
उदाहरण: यदि भारत अपने अमेरिका से आयात को \$25 बिलियन से बढ़ा देता है, जैसे कि तेल आयात का स्थानांतरण, तो उसकी पारस्परिक शुल्क दर 11.8% पर आ जाएगी, जो 10% न्यूनतम दर के करीब है।
- This adjustment does **not impact** India's **current account deficit**.  
यह परिवर्तन भारत के चालू खाता घाटे को प्रभावित नहीं करता।
- It only changes the **composition** of India's **oil import basket**, which might even be **beneficial**.  
यह केवल भारत के तेल आयात के स्रोतों में संरचना परिवर्तन करता है, जो लाभकारी भी हो सकता है।
- India should begin **consultations** with **U.S. trade authorities** to form a **comprehensive trade deal**.  
भारत को अमेरिकी व्यापार प्राधिकरणों से परामर्श शुरू करना चाहिए ताकि व्यापक व्यापार समझौता तैयार किया जा सके।
- India should also remain vigilant against **dumping** by countries like **China**.  
भारत को चीन जैसे देशों द्वारा डंपिंग के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए।

## WTO Must Take the Lead

### WTO को नेतृत्व करना चाहिए



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- The **U.S. tariff move** is likely just the **beginning**.  
अमेरिका का टैरिफ़ कदम संभवतः केवल शुरुआत है।
- Global trade and tariff structures will face **high uncertainty** in the **short to medium term**, which is **harmful** for **trade and growth**.  
वैश्विक व्यापार और टैरिफ़ संरचनाएँ अल्प से मध्यम अवधि में काफी अनिश्चितता का सामना करेंगी, जो व्यापार और विकास के लिए हानिकारक है।
- There is a need to build a **low-tariff global trade system**.  
एक कम शुल्क वाला वैश्विक व्यापार तंत्र बनाने की आवश्यकता है।
- The **World Trade Organization (WTO)** should take **strong steps** in this direction.  
विश्व व्यापार संगठन (WTO) को इस दिशा में सख्त कदम उठाने चाहिए।

**Regional trade groupings** are only a **second-best option**, but must still be **pursued**.  
क्षेत्रीय व्यापार समूह केवल एक द्वितीयक विकल्प हैं, फिर भी इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।

### TOPICS COVERED (PCS Special)

#### 1. **IIT-B Graduate Launches Free Website to Make Sanskrit Literature Accessible to All**

**IIT-B स्नातक ने सभी के लिए संस्कृत साहित्य को सुलभ बनाने के लिए मुफ्त वेबसाइट लॉन्च की**

#### 2. **Five Military Personnel Get MacGregor Medals**

**पाँच सैन्य कर्मियों को मैकग्रेगर पदक से सम्मानित किया गया**

#### **IIT-B Graduate Launches Free Website to Make Sanskrit Literature Accessible to All**




# IIT-B graduate launches free website to make Sanskrit literature accessible to all

PCS  
**Purnima San**  
MUMBAI

To bring together Sanskrit literature and reading tools, Antariksh Bothale, a software engineer from Jodhpur in Rajasthan, launched *SanskritSahitya.org*, a free website for anyone desiring quick access to Sanskrit literary texts, bringing his academic and professional experience in Natural Language Processing into the field of Sanskrit literature.

Mr. Bothale, an alumnus of the Indian Institute of Technology, Bombay, completed his master's in Computational Linguistics from the University of Washington. He now works at Google, California, on the Smart Home Assistant product. His in-



**Just a click away:** SanskritSahitya.org currently features texts such as the *Ramayana*, *Mahabharata*, *Bhagavad Gita*, *Mahakavya*, and poems written by Kalidasa and other poets. SPECIAL ARRANGEMENT

terest in languages drove him to maintain a blog, *Linguistrix*, since 2011.

“My overarching vision for the website is to make it the best experience for reading and analyzing Sanskrit literature, to leverage advancements in computational methods to aid the study and teaching for both casual readers and ex-

perts, and to help further computational work by amassing a rich structured corpus of Sanskrit texts in a consistent format,” Mr. Bothale said.

The features of the website include a structured navigation based on *sarga*, *adhyaaya*, *kaanda*, *shloka*, etc. with easily shareable pages. Alongside the origi-

nal text are metrical tagging, commentaries, translations, and morphological analysis.

## Offline access

The website can also be accessed offline, Mr. Bothale explained. “It takes a few seconds to download the entire data and then the content can be accessed offline on phone or desktop. Other scholars who wish to analyse the data in bulk can access it directly through the site's GitHub repository at [github.com/sanskritsahitya-com/data](https://github.com/sanskritsahitya-com/data),” he said.

The website currently features the *Ramayana*, *Mahabharata*, *Bhagavad Gita*, *Mahakavya*, and poems written by Kalidasa and other poets, and other popular texts.

## IIT-B स्नातक ने सभी के लिए संस्कृत साहित्य को सुलभ बनाने के लिए मुफ्त वेबसाइट लॉन्च की

To integrate Sanskrit literature with modern reading tools, Antariksh Bothale, a software engineer from Jodhpur, launched *SanskritSahitya.org*, a free website providing quick access to Sanskrit texts.

संस्कृत साहित्य को आधुनिक रीडिंग टूल्स के साथ जोड़ने के लिए जोधपुर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंतरिक्ष बोथले ने *SanskritSahitya.org* नामक एक मुफ्त वेबसाइट लॉन्च की, जो संस्कृत ग्रंथों तक त्वरित पहुँच प्रदान करती है।

- Mr. Bothale is an alumnus of IIT Bombay and completed his master's in Computational Linguistics from the University of Washington.



बोधले IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।

- He currently works at **Google, California**, on the **Smart Home Assistant** product. वह वर्तमान में **गूगल, कैलिफ़ोर्निया** में **स्मार्ट होम असिस्टेंट** उत्पाद पर कार्य कर रहे हैं।
- He has maintained a language blog called **Linguistrix** since **2011**, driven by his interest in languages.

उन्होंने भाषाओं में रुचि के चलते **2011** से **Linguistrix** नामक एक भाषा ब्लॉग बनाए रखा है।

- Mr. Bothale said his vision is to create the **best experience** for reading and analyzing **Sanskrit literature**, using **computational methods** to support both casual readers and experts.

बोधले ने कहा कि उनका उद्देश्य **संस्कृत साहित्य** पढ़ने और विश्लेषण करने के लिए **सर्वश्रेष्ठ अनुभव** प्रदान करना है, जिसमें **कंप्यूटेशनल विधियों** का उपयोग करके आम पाठकों और विशेषज्ञों दोनों की सहायता की जा सके।

- He also aims to develop a **structured corpus** of Sanskrit texts in a consistent format to further computational research. वह संस्कृत ग्रंथों का एक **सुसंगठित संरचित संग्रह** तैयार करना चाहते हैं, जिससे कंप्यूटेशनल अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके।

- The website includes features like **structured navigation** using **sarga, adhyaya, kaanda, shloka**, and has **easily shareable** pages.

वेबसाइट में **सर्ग, अध्याय, कांड, श्लोक** जैसे **संरचित नेविगेशन** की सुविधा है और इसके पृष्ठ आसानी से साझा किए जा सकते हैं।

- Each text is accompanied by **metrical tagging, commentaries, translations, and morphological analysis**.

प्रत्येक ग्रंथ के साथ **छंद पहचान, टीकाएँ, अनुवाद और रूपात्मक विश्लेषण** भी उपलब्ध है।

## Offline Access

### ऑफलाइन एक्सेस

- Mr. Bothale explained that the entire website data can be **downloaded in seconds** and accessed **offline** on phone or desktop.

बोधले ने बताया कि पूरी वेबसाइट का डेटा **कुछ ही सेकंड में डाउनलोड** किया जा सकता है और उसे **फोन या डेस्कटॉप पर ऑफलाइन एक्सेस** किया जा सकता है।

- He added that **scholars** can access the data in **bulk** via the site's **GitHub repository** at [github.com/sanskritsahitya-com/data](https://github.com/sanskritsahitya-com/data).

उन्होंने यह भी बताया कि **शोधकर्ता** इस डेटा को **GitHub रिपॉजिटरी**

([github.com/sanskritsahitya-com/data](https://github.com/sanskritsahitya-com/data)) के ज़रिए **बल्क में एक्सेस** कर सकते हैं।

- The website currently features texts like **Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, Mahakavya**, and **poems by Kalidasa** and others.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



फिलहाल वेबसाइट पर रामायण, महाभारत, भगवद गीता, महाकाव्य, और कालिदास व अन्य कवियों की रचनाएँ उपलब्ध हैं।

## Five military personnel get MacGregor medals

PCS  
The Hindu Bureau  
NEW DELHI

Five military personnel were on Wednesday conferred the MacGregor Memorial Medal by Chief of Defence Staff General Anil Chauhan for outstanding contributions in military reconnaissance, exploration and adventure for 2023 and 2024.

The awardees for 2023 included Wing Commander D. Panda from the Air Force and Electrical Artificer (Radio) Rahul Kumar Pandey from the Navy. For 2024, Chief Electrical Aircraft Artificer (Radio) Ram Ratan Jat of the Navy and Sergeant Jhumar Ram Poonia from the Air Force were honoured with the medal.

Colonel Ranvir Singh Jamwal, Director of the National Institute of Mountaineering and Adventure Sports in Arunachal Pradesh, was also awarded. However, the officer was not physically present to receive the award as he is on a mountaineering expedition to Kangchenjunga.

## Five Military Personnel Get MacGregor Medals

पाँच सैन्य कर्मियों को मैकग्रेगर पदक से सम्मानित किया गया

Five military personnel were awarded the MacGregor Memorial Medal by Chief of Defence Staff General Anil Chauhan for their outstanding contributions in military reconnaissance, exploration, and adventure for the years 2023 and 2024.

पाँच सैन्य कर्मियों को 2023 और 2024 में सैन्य टोही, खोज और साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान द्वारा मैकग्रेगर स्मृति पदक से सम्मानित किया गया।

• The awardees for 2023 included Wing Commander D. Panda from the Air Force and Electrical Artificer (Radio) Rahul Kumar Pandey from the Navy.

2023 के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में वायु सेना से विंग कमांडर डी. पांडा और नौसेना से इलेक्ट्रिकल आर्टीफिसर (रेडियो) राहुल कुमार पांडेय शामिल थे।

• For 2024, Chief Electrical Aircraft Artificer (Radio) Ram Ratan Jat from the Navy and Sergeant Jhumar Ram Poonia from the Air Force were honoured.

2024 के लिए, नौसेना से चीफ इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट आर्टीफिसर (रेडियो) राम रतन जाट और वायु सेना से सर्जेंट झूमर राम पूनिया को सम्मानित किया गया।

• Colonel Ranvir Singh Jamwal, the Director of the National Institute of Mountaineering and Adventure Sports in Arunachal Pradesh, also received the medal.

कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल, जो अरुणाचल प्रदेश में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के निदेशक हैं, को भी यह पदक प्रदान किया गया।

• However, he was not physically present to receive the award as he is currently on a mountaineering expedition to Kangchenjunga.

हालांकि, वह व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार ग्रहण करने के लिए उपस्थित नहीं थे क्योंकि वे इस समय कंचनजंघा पर्वत अभियान पर हैं।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur  
Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)  
Contact Number : 9971932488  
Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)